



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 6—मार्च 12, 2010 (फाल्गुन 15, 1931)

No. 10]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 6—MARCH 12, 2010 (PHALGUNA 15, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 मार्च 2010

सेना शाखा

सं. 101, दिनांक 09 फरवरी 2010—राष्ट्रपति, थल सेना अनुदेश 3  
विशेष 70 तथा एजी/पीएस-2 (ए) पत्र संख्या बी/32313/पीसी/एजी/पी  
एस-2(ए) दिनांक 23 फरवरी 2007 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां  
करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी को उनके 04 सितम्बर  
2009 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर 04 सितम्बर 2009 से स्थायी  
कमीशन प्रदान किया जाता है :--

नाम, एसएस सं., आईसी सं. और आर्म/सर्विस

स्वपन कुमार सक्सेना (एसएस-38124वाई) (आईसी-56502पी),  
आर्टी

सुरेश कुमार (एसएस-38157के) (आईसी-56506एल), ईएमई  
केआर कोथान्दरारमन (एसएस-38172वाई) (आईसी-56509वाई),  
इन्फैन्ट्री

सत्यजीत स्वाई (एसएस-38191के) (आईसी-56510एन), मैक  
इन्फैन्ट्री

अलिप कुमार रॉय (एसएस-38199डब्ल्यू) (आईसी-56523एल),  
इंजीनियर

उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होंगी :--

वेतन वृद्धि के लिये तारीख - 04 सितम्बर 1999

पदोन्नति के लिये तारीख - 04 मई 2001

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के दसवें वर्ष में  
कमीशन प्रदान किया और वह जिन्हें आठवें वर्ष में स्थायी कमीशन प्रदान  
किया गया है उसकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन  
प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

राष्ट्रपति, विशेष थलसेना अनुदेश 7 विशेष 66 के अंतर्गत निम्नलिखित  
नियुक्तियां करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी को उनके 04 सितम्बर  
99 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर 04 सितम्बर 99 से स्थायी कमीशन  
प्रदान किया जाता है:--

नाम, एसएस सं., आईसी सं. और आर्म/सर्विस

दीपक काण्डपाल (एसएस-37972) (आईसी-56318के), इंजीनियर्स

उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :--

वेतन वृद्धि के लिये तारीख - 07 नवम्बर 1998

पदोन्नति के लिये तारीख - 07 नवम्बर 1998

(इस बैच के अधिकारी को जिसे 5 वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया था उसकी तुलना में 12 महीने वरिष्ठता कम कर देने के बाद)

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के दसवें वर्ष में स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उसकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

राष्ट्रपति, थलसेना अनुदेश 3 विशेष 70 और एआई 12/2001 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी को उसके 03 जुलाई 09 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर 03 जुलाई 09 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है:--

नाम, एसएस सं., आईसी सं. और आर्म/सर्विस

हरविन्द सिंह (एसएस-39290वाई) (आईसी-65472के), इन्फैन्ट्री

उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :--

वेतन वृद्धि के लिये तारीख - 01 सितम्बर 2001

पदोन्नति के लिये तारीख - 01 मई 2003

(इस बैच के अधिकारी को जिसे 5 वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया था उसकी तुलना में 12 महीने वरिष्ठता कम कर देने के बाद)

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के आठवें वर्ष में स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उसकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी को उनके 20 मार्च 2004 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर 20 मार्च 2004 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है:--

नाम, एसएस सं., आईसी सं. और आर्म/सर्विस

सर्फराज सिंह साहगोरा (एसएस-40546एच) (आईसी-66055के), इन्फैन्ट्री

उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी

वेतन वृद्धि के लिये तारीख - 20 मार्च 2004

पदोन्नति के लिये तारीख - 20 अक्टूबर 2004

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के आठवें वर्ष में स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी को उनके 03 जुलाई 09 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर 03 जुलाई 09 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है:--

नाम, एसएस सं., आईसी सं. और आर्म/सर्विस

राजेश कुमार (एसएस-39037एक्स) (आईसी-65286एन), इन्फैन्ट्री

उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी:--

वेतन वृद्धि के लिये तारीख - 03 मार्च 2001

पदोन्नति के लिये तारीख - 03 नवम्बर 2002

(इस बैच के अधिकारी को जिन्हें 5 वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया था उनकी तुलना में 12 महीने वरिष्ठता कम कर देने के बाद)

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के आठवें वर्ष में स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 03 जुलाई 09 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर 03 जुलाई 09 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है:--

नाम, एसएस सं., आईसी सं. और आर्म/सर्विस

अभिषेक मिश्रा (एसएस-39368वाई) (आईसी-65476ए), इन्फैन्ट्री

प्रवीन कुमार दुबे (एसएस-39393एक्स) (आईसी-65478एल), इन्फैन्ट्री

धर्मेन्द्र सिंह (एसएस-39458ए) (आईसी-65484वाई), इन्फैन्ट्री

अवनीत सिंह मेहता (एसएस-39461ए) (आईसी-65485एफ), मैक इन्फैन्ट्री

उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी:--

वेतन वृद्धि के लिये तारीख - 01 सितम्बर 2001

पदोन्नति के लिये तारीख - 01 मई 2003

(इस बैच के अधिकारियों को जिन्हें 5 वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया था उनकी तुलना में 12 महीने वरिष्ठता कम कर देने के बाद)

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के आठवें वर्ष में स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

राष्ट्रपति, यथा संशोधित विशेष थल सेना अनुदेश 7 विशेष 66 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों का उनके 17 सितम्बर 2009 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर 17 सितम्बर 2009 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है:--

नाम, एसएस सं., आईसी सं. और आर्म/सर्विस  
 अनुपम शर्मा (एसएस-40820पी) (आईसी-66150डब्ल्यू), सिग्नल्स  
 दिनेश कुमार (एसएस-40822ए) (आईसी-66151वाई), इंजीनियर्स  
 एन अशोक (एसएस-40827वाई) (आईसी-66153के), ईएमई  
 आलोक कुमार (एसएस-40829के) (आईसी-66154एम), इंजीनियर्स  
 गौरव ठाकुर (एसएस-40831एफ) (आईसी-66156एक्स), सिग्नल्स  
 ओम प्रकाश यादव (एसएस-40832के) (आईसी-66157ए), सिग्नल्स  
 गौरव मौदगिल (एसएस-40834पी) (आईसी-66158एच), सिग्नल्स  
 सौरभ लोहनी (एसएस-40836ए) (आईसी-66159एल), सिग्नल्स  
 बिपिन विनय आगाशे (एसएस-40836एच) (आईसी-66161एच),  
 इंजीनियर्स  
 अलनकार विलास उमडेकर (एसएस-40843डब्ल्यू) (आईसी-  
 66163एन), सिग्नल्स  
 विनय कुमार शर्मा (एसएस-40846के) (आईसी-66165वाई),  
 सिग्नल्स  
 देशमुख योगन्द्र अनिल (एसएस-40847एम) (आईसी-66166एफ),  
 ईएमई  
 महेश बी ए (एसएस-40849एक्स) (आईसी-66167के), इंजीनियर्स  
 संदीप बी जी (एसएस-40850एम) (आईसी-66168एम), ईएमई  
 आनंत केशवा बी एन (एसएस-40862एफ) (आईसी-66173एक्स),  
 सिग्नल्स

उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी:--

वेतन वृद्धि के लिये तारीख - 17 अक्टूबर 2002

पदोन्नति के लिये तारीख - 17 अक्टूबर 2002

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के पांच वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी को उनके 20 मार्च 2009 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर 20 मार्च 2009 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है:--

नाम, एसएस सं., आईसी सं. और आर्म/सर्विस

जीजू वरगीस (एसएस-40522वाई) (आईसी-66042एम), ईएमई

उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी:--

वेतन वृद्धि के लिये तारीख - 20 अप्रैल 2002

पदोन्नति के लिये तारीख - 20 अप्रैल 2002

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के पांच वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

विजय रानडे  
 कर्नल एमएस-7

थलसेना विभाग (एमजीओ) ईएमई कार्मिक

सं. 102 दिनांक 09 फरवरी 2010--

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नाम और नियुक्ति की तारीख

विपीन कुमार पाण्डे (जेसी-761090पी) 07 अप्रैल 2007  
 राजेश कुमार तिवारी (जेसी-761501एच) 08 सितम्बर 2007  
 अखिलेश्वर त्रिवेदी (जेसी-761502एल) 08 सितम्बर 2007  
 श्यामसुन्दर पाण्डे (जेसी-761503एन) 08 सितम्बर 2007  
 विजय कुमार दुवेदी (जेसी-761504डब्ल्यू) 08 सितम्बर 2007  
 धिरेन्द्र कुमार पाण्डे (जेसी-762131ए) 22 मार्च 2008  
 आदेश कुमार पाण्डे (जेसी-762133एल) 22 मार्च 2008  
 विनोद कुमार स्वामी (जेसी-762135डब्ल्यू) 22 मार्च 2008  
 राकेश प्रसाद (जेसी-761718एम) 01 दिसम्बर 2007  
 रविकांत शर्मा (जेसी-761720के) 01 दिसम्बर 2007  
 मुकेश कुमार त्रिपाठी (जेसी-761719पी) 01 दिसम्बर 2007  
 संतोष कुमार तिवारी (जेसी-762132एच) 22 मार्च 2008  
 श्री ओम प्रकाश (जेसी-762134एन) 22 मार्च 2008

एन के कश्मीरा  
 अवर सचिव

नेवी ब्रांच

रक्षा मंत्रालय-एकीकृत मुख्यालय (नौसेना)

सं. 103, दिनांक 10 फरवरी 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष श्री सुनील भल्ला, वैयक्तिक सहायक को दिनांक 19 जनवरी 2009 से सशस्त्र सेना मुख्यालय की आशुलिपिक सेवा में निजी सचिव (वर्ग 'ख' राजपत्रित वेतनमान रु. 9,300-34,800/- ग्रेड पे रु. 4800/- सहित) नियुक्त करते हैं।

अर्चना रॉय  
 उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

सं. 104, दिनांक 10 फरवरी 2010--श्री वी.के. तिवारी, भारतीय डाक सेवा (88), निदेशक, रक्षा मंत्रालय की वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति के फलस्वरूप उनके समयपूर्व प्रत्यावर्तन की वजह से 30 अक्टूबर 2009 (अपराह) से उनकी सेवाएं डाक विभाग को सौंपी जाती हैं।

के मुरली  
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 105, दिनांक 11 फरवरी 2010--राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले कर्नल से कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में

नाम, वैयक्तिक सं., आर्म और मूल रैंक की तिथि

जेम्स अनिल ई (आईसी-45579), इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007

एस पार्थसारथी (आईसी-43738), सिग्नल्स, 01 मई 2007

शिवपाल सिंह (आईसी-43669), इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007

एस आर्य (आईसी-44445), आईसी, 10 अगस्त 2007 किन्तु वरिष्ठता दिनांक 01 मई 2007 से बिना वेतन एवं पेन्शन पर प्रभाव के।

पी के मल्होत्रा (आईसी-45628), एसी, 01 मई 2007

राजेश पुरी (आईसी-42766), ईएमई, 15 अगस्त 2006

अनिल हुड्डा (आईसी-42767), एसी, 02 फरवरी 2007 किन्तु वरिष्ठता दिनांक 15 अगस्त 2006 से बिना वेतन एवं पेन्शन पर प्रभाव के।

टी के दास  
उप निदेशक एमएस-8ए

थल सेना शाखा

सं. 106, दिनांक 11 फरवरी 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

ले कर्नल (और समकक्ष) से कर्नल (और समकक्ष) के पद पर

गुरविन्दर सिंह (एमआर-05571एच), 05 सितम्बर 2008 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 05 जून 2008 से दी जाती है।

यश पांडे

ब्रिगे महानिदेशक स से चि से (एचआर)

सेना शाखा

सं. 107, दिनांक 12 फरवरी 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (समय मान द्वारा)

नाम, आईसी संख्या, आर्म और सब्सटेंटिव तिथि

पी आर शर्मा (आईसी-37859डब्ल्यू) इंजीनियर्स, 27 अक्टूबर 2005

मेजर से ले कर्नल के मूल रैंक में (समयमान द्वारा)

नाम, आईसी सं., आर्म और सब्सटेंटिव तिथि

हरदीप सिंह (आईसी-45005एल), इन्फैन्ट्री, 26 अप्रैल 2003

जसवन्त सिंह  
संयुक्त निदेशक एमएस-8सी

सेना शाखा

सं. 108, दिनांक 12 फरवरी 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष पदोन्नतियां करने की अनुमति प्रदान करते हैं:--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

ले कर्नल बनाया जाता है

मेजर जे चक्रवर्ती टीए(एम)-1204 (एमसीटीए), 02 अप्रैल 2009

मेजर आर के मनोहर टीए(एम)-1179 (एमसीटीए), 18 दिसम्बर 2008

मेजर राजीव कुमार गुप्ता टीए(एम)-1176 (एमसीटीए), 16 दिसम्बर 2004

मेजर सोहन सिंह टीए(एम)-1200 (एमसीटीए), 25 जुलाई 2007

मेजर एम के दास टीए(एम)-1203 (एमसीटीए), 05 मार्च 2009

मेजर बनाया जाता है

कैप्टन सोहन सिंह टीए(एम)-1200 (एमसीटीए), 25 जुलाई 2000

कैप्टन अमृतपाल सिंह टीए(एम)-1207 (एमसीटीए), 29 अप्रैल 2008

कैप्टन आर तालुकदार टीए(एम)-1211 (एमसीटीए), 25 अगस्त 2009

जय राज  
अवर सचिव

## सेना शाखा

सं. 109, दिनांक 15 फरवरी 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की उनके सामने देय तिथि से पदोन्नतियां करते हैं:--

## नियमित सेना

## स्थायी कमीशन

सर्जन लेफ्टि. कमांडर से सर्जन कमांडर के पद पर

नीलांजन राय (एमआर-06918डब्ल्यू) (75617एफ), एएमसी, 04 जुलाई 2008

## मेजर के पद पर

आदर्श शर्मा (एमएस-15041एफ) (एमआर-08899पी), एएमसी, 12 अक्टूबर 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 04 अप्रैल 2009 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

विरेंद्र सुहाग (एमएस-15032ए) (एमआर-08894डब्ल्यू), एएमसी, 12 अप्रैल 2006

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 08 सितम्बर 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

ब्रिगे. यश पांडे

उप महानिदेशक स.से.चि.से. (मा. सं.)

सं. 110, दिनांक 15 फरवरी 2010--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं:--

## नियमित सेना

## स्थायी कमीशन

## कप्तान से मेजर

नाम, आईसी सं., आर्म और मेजर दिनांक से

(आईसी-61786) रविन्द्र सिंह, आर्टी, 08 दिसम्बर 2007

(आईसी-62349) अनीष मोहन सैनी, एसी, 08 जून 2008

(आईसी-62615) राज कुमार, इन्फैन्ट्री, 10 दिसम्बर 2008

(आईसी-62803) अभय जुयाल, एओसी, 10 दिसम्बर 2008

(आईसी-63191) शोना जॉर्ज, आर्टी, 14 जून 2009

(आईसी-65607) दीपू के, इन्फैन्ट्री, 02 नवम्बर 2008

(आईसी-65639) आदित्य कपूर, एसी, 02 नवम्बर 2008

## ले से कप्तान

नाम, आईसी सं. और आर्म

(आईसी-70671) तरशेम, एएडी

(आईसी-70686) गुरजन्त सिंह, सिग्नल्स

(आईसी-70705) गोरेगाँवकर अभिषेक प्रफुल्ल, सिग्नल्स

(आईसी-70709) साईनाथ कित्तुर, इंजीनियर्स

(आईसी-70729) भुपेन्द्र कुमार, इंजीनियर्स

--11 जून 2008--

(आईसी-68369) अनिरुद्ध ए मोरोने, इंजीनियर्स, 10 जून 2008 (वेतन एवं भत्ता 13 जून 2008से)

जसवन्त सिंह

संयुक्त निदेशक एमएस-8सी

## सेना शाखा

सं. 111, दिनांक 16 फरवरी 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एएमसी अधिकारियों की उनके सामने देय तिथि से पदोन्नत करते हैं:--

## नियमित सेना

## स्थायी कमीशन

सर्जन लेफ्टीनेन्ट के पद पर

सिद्धार्थ मुखर्जी (एमआर-08675पी) (75978ए), एएमसी, 01 फरवरी 2009

वी ए अरूण (एमआर-08628एक्स) (75971के), एएमसी, 01 फरवरी 2009

ब्रिगे. यश पांडे

उप महानिदेशक स से चि से (मा. सं.)

सं. 112, दिनांक 16 फरवरी 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियां/पदोन्नतियां करते हैं:--

## नियमित सेना

## सेना आयुद्ध कोर

पक्के सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मेजर अम्युनिशन तकनिशियन राजेन्द्र सिंह (जेसी-723276पी), 15 अगस्त 2008 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

सूबेदार मेजर अम्युनिशन तकनिशियन संतोष कुमार सिंह (जेसी-722986ए), 09 सितम्बर 2008 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जायेगी)

सूबेदार मेजर लिपिक (जीडी) राम सुन्दर (जेसी-723773वाई), 28 अप्रैल 2008 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)

सूबेदार मेजर लिपिक (जीडी) सुभाष चन्द्र गुलेरिया (जेसी-723784एल), 01 जून 2008

सूबेदार मेजर लिपिक (जीडी) शंकर कुमार पाल (जेसी-723788एफ), 01 जुलाई 2008

सूबेदार मेजर लिपिक (जीडी) सिंघे भगवन्त शंकर (जेसी-723785एन), 01 जुलाई 2008

सूबेदार मेजर लिपिक (जीडी) रत्नेश्वर प्रसाद सिंह (जेसी-723713के), 01 जुलाई 2008 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी)

सूबेदार मेजर लिपिक (जीडी) श्याम सुन्दर गौर (जेसी-723859एक्स), 04 जुलाई 2008 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

सूबेदार मेजर लिपिक (जीडी) प्रताप सिंह (जेसी-723934डब्ल्यू), 05 जुलाई 2008 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी)

सूबेदार मेजर लिपिक (जीडी) राम नरेश प्रसाद सिंह (जेसी-723860एम), 01 अगस्त 2008

सूबेदार मेजर लिपिक (जीडी) लक्ष्मी कांत बेहरा (जेसी-723898डब्ल्यू), 03 अगस्त 2008 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

सूबेदार मेजर लिपिक (जीडी) रविन्दर सिंह (जेसी-723901एल), 01 सितम्बर 2008

सूबेदार मेजर लिपिक (जीडी) एमडी एकरामुल हक (जेसी-723905एफ), 06 सितम्बर 2008 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)

सूबेदार मेजर लिपिक (जीडी) राय सिंह (जेसी-723906के), 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार मेजर लिपिक (जीडी) भागवत सरन सारस्वत (जेसी-723968के), 01 दिसम्बर 2008

सूबेदार मेजर लिपिक (जीडी) कमलेश सिंह (जेसी-723969एम), 01 मार्च 2009

सूबेदार मेजर लिपिक (एस प्रोविजन) निकमं केशव मोकिन्दा (जेसी-723895एच), 16 जून 2008 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी)

सूबेदार मेजर लिपिक (एस प्रोविजन) पितांबर सिंह तुफान (जेसी-723781एक्स), 23 जून 2008 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी)

सूबेदार मेजर लिपिक (एस प्रोविजन) जी बालाक्रिष्णन (जेसी-723941एम), 10 अक्टूबर 2008 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)

सूबेदार मेजर लिपिक (एस कंट्रोल) सुखराम सिंह (जेसी-722746एच), 03 मई 2008 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)

सूबेदार मेजर लिपिक (एस कंट्रोल) लालजी पाटक (जेसी-723783एच), 21 जुलाई 2008 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी)

सूबेदार मेजर (एसकेटी) इंजीनियर खुर्शीद अहमद (जेसी-723627वाई), 10 मार्च 2008 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जायेगी)

सूबेदार मेजर (एसकेटी) इंजीनियर योगेश कुमार (जेसी-723717ए), 01 जून 2008

सूबेदार मेजर (एसकेटी) इंजीनियर विजय कुमार सहिजपाल (जेसी-723797एच), 01 फरवरी 2009

सूबेदार मेजर (एसकेटी) एमटी रधीसा बाबू सी (जेसी-723647एम), 05 जनवरी 2009 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी)

सूबेदार मेजर (एसकेटी) एमटी लोकेन्द्र सिंह चौहान (जेसी-723869एफ), 01 फरवरी 2009

सूबेदार मेजर (एसकेटी) एमटी अमरजीत सिंह (जेसी-723673एच), 01 जुलाई 2008

सूबेदार मेजर (एसकेटी) एमटी असिफ अली खान (जेसी-723638एल), 05 अगस्त 2008 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

सूबेदार मेजर (एसकेटी) वेपन कुलदीप सिंह (जेसी-723535एम), 01 मई 2008

सूबेदार मेजर (एसकेटी) वेपन अशोक कुमार (जेसी-723745एम), 14 मई 2008 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी)

सूबेदार मेजर (एसकेटी) अम्युनिशन प्रदीप सिंह (जेसी-723542एच),  
01 नवम्बर 2008

सूबेदार मेजर (एसकेटी) अम्युनिशन मुन्नी लाल (जेसी-723662एफ), 01 नवम्बर 2008

सूबेदार मेजर (एसकेटी) अम्युनिशन बुधीराम गोगई (जेसी-723650एम), 01 जनवरी 2009

सूबेदार मेजर (एसकेटी) अम्युनिशन पन्वू लाल (जेसी-723872एफ),  
31 मार्च 2009 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार मेजर (एसकेटी) अम्युनिशन लक्ष्मी दत्ता शर्मा (जेसी-723841एफ), 01 अप्रैल 2009

सूबेदार मेजर (एसकेटी) अम्युनिशन भंडार कवाते सिदराम  
(जेसी-724060ए), 09 सितम्बर 2008 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार मेजर (एसकेटी) जी एस एण्ड सी गोपाल चन्द्र बाला  
(जेसी-723726एफ), 01 नवम्बर 2008

सूबेदार मेजर (एसकेटी) जी एस एण्ड सी कृष्णन टी (जेसी-723641एल), 12 दिसम्बर 2008 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार मेजर (एसकेटी) सिगनल तिलक राज (जेसी-723626डब्ल्यू),  
29 दिसम्बर 2008 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार मेजर ड्राईवर (एमटी) रमेश सिंह (जेसी-725925एन),  
01 सितम्बर 2008

सूबेदार मेजर (एसएचटी) मुसा खान पठान (जेसी-724946एक्स),  
01 नवम्बर 2008

सूबेदार मेजर एसएच (जीडी) गोबिंद राम (जेसी-725986एल),  
04 मई 2008 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार मेजर एसएच (जीडी) शैक कासिम पेरा (जेसी-725945एफ), 05 मई 2008 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार मेजर एसएच (जीडी) मनोहर सिंह (जेसी-725989वाई),  
01 सितम्बर 2008

सूबेदार मेजर एसएच (जीडी) रंजीत सिंह (जेसी-726030एफ),  
01 अक्टूबर 2008

सूबेदार मेजर एसएच (जीडी) सूरत सिंह (जेसी-725990एन),  
01 सितम्बर 2008

सूबेदार के रैंक में

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन वर्धा राजन ए (जेसी-725229डब्ल्यू), 01 मई 2008

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन बाला सुब्रामनियम सी (जेसी-725288एच), 01 मई 2008

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन सारगदा मंगा बाबू (जेसी-725309एन), 01 मई 2008

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन आई धर्मालिंगम (जेसी-725254पी),  
21 मई 2008 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन रवी एम (जेसी-725289एल),  
01 जुलाई 2008

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन शिव पूजन सिंह (जेसी-725310एच), 01 जुलाई 2008

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन प्रेमलाल ठाकुर (जेसी-725311एल),  
01 जुलाई 2008

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन श्याम लाल माली (जेसी-725314वाई), 01 जुलाई 2008

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन शिव राम सिंह ख्यालिआ (जेसी-725377एफ), 01 जुलाई 2008

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन सुकेश चंद्रा रंजित (जेसी-725313डब्ल्यू), 13 जुलाई 2008 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन ओम प्रकाश जाज्जा  
(जेसी-725525एफ), 01 अगस्त 2008

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन दुर्गा राम साहू (जेसी-725581ए),  
01 अगस्त 2008

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन नाथू लाल (जेसी-725524वाई),  
22 अगस्त 2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन हेमंत कुमार मिश्रा (जेसी-725312एन), 27 अगस्त 2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन शैक शकील दास्तगीर (जेसी-725583एल), 01 सितम्बर 2008

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन सूर्यबंसी एस सी (जेसी-725584एन), 01 सितम्बर 2008

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन सत्यवीर (जेसी-725676ए), 01 सितम्बर 2008

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन सुरेंद्र सिंह (जेसी-725708एक्स), 01 सितम्बर 2008

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन कृष्ण लाल (जेसी-725677एच), 18 सितम्बर 2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन मधुकर मेहता (जेसी-725739एक्स), 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन वकील पोदार (जेसी-725950एम), 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन धरमवीर (जेसी-725699एफ), 25 अक्टूबर 2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन अजय कुमार मंडल (जेसी-725709ए), 01 नवम्बर 2008

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन विमल ठाकुरे (जेसी-725710पी), 01 नवम्बर 2008

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन नाग राजन जी आर (जेसी-725308एल), 01 दिसम्बर 2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन गोविंद प्रसाद (जेसी-725765वाई), 01 जनवरी 2009

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन जाधव सुनील वसन्त (जेसी-725780एन), 01 जनवरी 2009

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन दयानिधि बेहेरा (जेसी-725806एक्स), 01 जनवरी 2009

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन हरगोबिन्द सिंह (जेसी-725953ए), 01 जनवरी 2009

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन राम चंद्र पण्डा (जेसी-725952एक्स), 01 फरवरी 2009

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन बिष्णु प्रियो त्रिपाठी (जेसी-725781डब्ल्यू), 01 मार्च 2009

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन डी बसव राज नारायन (जेसी-725809एल), 01 मार्च 2009

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन तरुण कुमार घोष (जेसी-725951पी), 01 मार्च 2009

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन प्रेम नारायन सिंह (जेसी-726194एक्स), 17 मार्च 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन बिमन कुमार बिस्वास (जेसी-725954एच), 18 मार्च 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन लक्ष्मीकान्त प्रधान (जेसी-725741पी), 19 मार्च 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन जाधव भगवान कृष्णा (जेसी-725779वाई), 20 मार्च 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक (जीडी) यश पाल सिंह (जेसी-726007एन), 12 मार्च 2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक (जीडी) प्रदीप कुमार पी वी (जेसी-726294एच), 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार लिपिक (जीडी) देविन्दर शर्मा (जेसी-726326ए), 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार लिपिक (जीडी) सुखवीर सिंह (जेसी-726327एच), 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार लिपिक (जीडी) राम नंदन कुमार (जेसी-726328एल), 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार लिपिक (जीडी) शशी कुमार शर्मा (जेसी-726330एच), 01 नवम्बर 2008

सूबेदार लिपिक (जीडी) आत्मा सिंह (जेसी-726331एल), 01 नवम्बर 2008

सूबेदार लिपिक (जीडी) शमशेर सिंह (जेसी-726332एन), 01 नवम्बर 2008

सूबेदार लिपिक (जीडी) पी के नाज़्हर (जेसी-726369पी), 01 नवम्बर 2008



सूबेदार लिपिक (जीडी) शत्रुघन लाल (जेसी-726372पी), 01 नवम्बर 2008

सूबेदार लिपिक (जीडी) मोहम्मद घाफिर खान (जेसी-726383एफ), 01 नवम्बर 2008

सूबेदार लिपिक (जीडी) सुरेन्द्र प्रसाद सिंह (जेसी-726329एन), 10 नवम्बर 2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक (जीडी) महेश चंद्र शर्मा (जेसी-726349एफ), 05 दिसम्बर 2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक (जीडी) मल्लिकार्जुन बसप्पा (जेसी-726602एक्स), 01 मार्च 2009

सूबेदार लिपिक (जीडी) विजय पाल सिंह दलाल (जेसी-726646पी), 01 मार्च 2009

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल मूलराज भगत (जेसी-726077एम), 01 मई 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल अशोक कुमार (जेसी-726079एक्स), 01 मई 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल रघुपाल सिंह (जेसी-726080एम), 01 मई 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल प्रेम चन्द विशोदिआ (जेसी-726101एक्स), 01 मई 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल ओमपाल सिंह (जेसी-726115एक्स), 01 मई 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल राम बृक्ष सिंह (जेसी-726120एच), 01 मई 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल हीरालाल यादव (जेसी-726127एम), 01 मई 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल अनिल कुमार सक्सेना (जेसी-726186वाई), 04 मई 2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल लंकुश लाल (जेसी-726129एक्स), 19 मई 2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल रवी लाल (जेसी-726065एक्स), 29 मई 2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल प्रेम प्रकाश (जेसी-726082एक्स), 29 मई 2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल गिरधारी सिंह (जेसी-726130एम), 01 जून 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल जसवन्त सिंह (जेसी-726131पी), 01 जून 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल गोपाल सिंह शेखावत (जेसी-726163एक्स), 01 जून 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल रमेश चंद (जेसी-726164ए), 01 जून 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल सुरिन्दर सिंह (जेसी-726166एल), 01 जून 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल दलजीत सिंह (जेसी-726167एन), 01 जून 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल महेश प्रसाद साह (जेसी-726168डब्ल्यू), 01 जून 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल परमजीत सिंह (जेसी-726170एन), 01 जून 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल रघुबीर सिंह (जेसी-726171डब्ल्यू), 01 जून 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल मोहन लाल (जेसी-726172वाई), 01 जून 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल राजेंद्र सिंह (जेसी-726173एफ), 01 जून 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल करम सिंह (जेसी-726175एम), 01 जून 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल राम नारायण सिंह (जेसी-726177एक्स), 01 जून 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल खुशी राम (जेसी-726189एम), 01 जून 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल बिरेन्दर सिंह (जेसी-726195ए), 01 जून 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल गिरीश चन्द्र त्रिपाठी (जेसी-726196एच), 01 जून 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल गुनाई यादव (जेसी-726216एल), 01 जून 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल सुखदेव सिंह सन्धू (जेसी-726083ए), 02 जून 2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल श्रीकान्त होंगल (जेसी-726201एच),  
01 जुलाई 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल रामधनी यादव (जेसी-726202एल),  
01 जुलाई 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल सोमा शंखर धनाशेटी (जेसी-726213एक्स), 01 जुलाई 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल राजेंद्रन पिल्लै (जेसी-725544एम),  
05 जुलाई 2008\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल भूपाल सिंह (जेसी-726176पी),  
16 जुलाई 2008\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल सदानंदन पी के (जेसी-726174के),  
17 जुलाई 2008\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल चंद बुखारी मरुफ (जेसी-726197एल),  
18 जुलाई 2008\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल रियासत अली (जेसी-726200ए),  
21 जुलाई 2008\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल राजेन्द्र प्रसाद सिंह (जेसी-726203एन),  
01 अगस्त 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल शैख मोहम्मद अस्लम (जेसी-726218डब्ल्यू), 01 अगस्त 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल अजय कुमार पांडे (जेसी-726229एच),  
01 अगस्त 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल रवीन्द्र कुमार (जेसी-726230एक्स),  
01 अगस्त 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल वल्ले चन्द्रकांत बाबू राव  
(जेसी-726248एन), 01 अगस्त 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल घनश्याम बिद्यार्थी (जेसी-726249डब्ल्यू), 01 अगस्त 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल खीमा नंद पंचोली (जेसी-726250एल),  
01 अगस्त 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल श्री कृष्ण सिंह (जेसी-726251एन),  
01 अगस्त 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल मनोरंजन बिस्वास (जेसी-726252डब्ल्यू), 01 अगस्त 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल रामधनी यादव (जेसी-726253वाई),  
01 अगस्त 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल राम कुमार (जेसी-726798डब्ल्यू),  
01 अगस्त 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल शिव बहादुर (जेसी-726231ए),  
01 सितम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल बासदेव ग्रादव (जेसी-726232एच),  
01 सितम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल बिजू नायर (जेसी-726233एल),  
01 सितम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल प्रदीप्ता किशोर मिश्रा (जेसी-726234एन), 01 सितम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल अशोक कुमार सिंह (जेसी-726254एफ), 01 सितम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल प्रदीप सिंह (जेसी-726255के),  
01 सितम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल अचुतानन्द सतपती (जेसी-726256एम),  
01 सितम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल भीमा नंद (जेसी-726257पी),  
01 सितम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल सुरेश कुमार (जेसी-726258एक्स),  
01 सितम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल ओमकार नाथ (जेसी-726259ए),  
01 सितम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल उत्तम कुमार सिंह (जेसी-726317वाई),  
01 सितम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल अशोक कुमार सिंह (जेसी-726235डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल दिवाकर पांडे (जेसी-726260पी),  
01 अक्टूबर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल एस मोहम्मद अतौलाह (जेसी-726261एक्स),  
01 अक्टूबर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल सन्तोष पाल (जेसी-726262ए),  
01 अक्टूबर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल बिष्णु महतो (जेसी-726263एच),  
01 अक्टूबर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल उमामहेश्वर राव एल (जेसी-726279एन), 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल हरी चंद शाक्या (जेसी-726280एच),  
01 अक्टूबर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल नरीन्दर सिंह (जेसी-726281एल),  
01 अक्टूबर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल रमेश बाबू के पी (जेसी-726282एन),  
01 अक्टूबर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल रन वीर सिंह (जेसी-726283डब्ल्यू),  
01 अक्टूबर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल भरत सिंह राठोर (जेसी-726284वाई),  
01 अक्टूबर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल जगदीश चंद (जेसी-726285एफ),  
01 अक्टूबर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल रामोतार (जेसी-726288पी),  
01 अक्टूबर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल ओमवीर सिंह यादव (जेसी-726291पी),  
01 अक्टूबर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल श्याम वीर (जेसी-726292एक्स),  
01 अक्टूबर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल कोका माधवा नायडू (जेसी-726293ए),  
01 अक्टूबर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल राजवीर प्रसाद मिश्रा (जेसी-726346एन), 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल अजीत सिंह (जेसी-726347डब्ल्यू),  
01 अक्टूबर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल राम गोपाल (जेसी-726348वाई),  
01 अक्टूबर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल चान्दी प्रसाद (जेसी-726393एल),  
01 अक्टूबर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल शिशु पाल सिंह (जेसी-726286के),  
07 अक्टूबर 2008\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल कमल सिंह (जेसी-726287एम),  
08 अक्टूबर 2008\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल एम डी हैदर अली अनसारी  
(जेसी-726324पी), 21 अक्टूबर 2008\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल अजोय नंदी (जेसी-726322के),  
27 अक्टूबर 2008\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल उमेश कुमार सिंह (जेसी-726371एम),  
01 नवम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल विद्याधर पांडे (जेसी-726373एक्स),  
01 नवम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल चन्द्र पाल (जेसी-726374ए),  
01 नवम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल सत्य नारायण यादव (जेसी-726384के),  
01 नवम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल राम पुकार राय (जेसी-726385एम),  
01 नवम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल काम्बले प्रकाश शिवराम (जेसी-726399एम), 01 नवम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल अन्तर्यामी महापात्रा (जेसी-726400डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल केशव चंद्र बराल (जेसी-726410ए),  
01 नवम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल अनिल कुमार (जेसी-726412एल),  
01 दिसम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल राम सिंह सैनी (जेसी-726414डब्ल्यू),  
01 दिसम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल अकोल्कर उत्तम गंगाधर राव (जेसी-72615वाई), 01 दिसम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल ओम प्रकाश (जेसी-726417के),  
01 दिसम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल नागेन्द्र सिंह (जेसी-726446वाई),  
01 दिसम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल सरवन सिंह (जेसी-726447एफ),  
01 दिसम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल जगदीश चन्द्र (जेसी-726464एफ),  
01 दिसम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल जगरूप सिंह (जेसी-726472ए),  
01 दिसम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल कुलदीप सिंह (जेसी-726473एच),  
01 दिसम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल उम्मैद सिंह इन्दा (जेसी-726474एल),  
01 दिसम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल मोहनन आर (जेसी-726475एन),  
01 दिसम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल अभय कुमार (जेसी-726490एच),  
01 दिसम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल मेहरबान खान पठान (जेसी-726491एल), 01 दिसम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल गुलाब सिंह (जेसी-726492एन),  
01 दिसम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल शिव दान सिंह (जेसी-726493डब्ल्यू),  
01 दिसम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल सुबाश सिंह (जेसी-726495एफ),  
01 दिसम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल सत्यवीर सिंह (जेसी-726510एल),  
01 दिसम्बर 2008

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल बीरेन्द्र सिंह (जेसी-726416एफ),  
15 दिसम्बर 2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 दिसम्बर 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल गोविंद सिंह यादव (जेसी-726462डब्ल्यू), 25 दिसम्बर 2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 दिसम्बर 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल राम निवास (जेसी-726479के),  
01 जनवरी 2009

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल खजान सिंह (जेसी-726480वाई),  
01 जनवरी 2009

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल बलधारी सिंह सेंगर (जेसी-726481एफ),  
01 जनवरी 2009

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल सुरेन्द्र नाथ दास (जेसी-726496के),  
01 जनवरी 2009

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल अरुण कुमार तिवारी (जेसी-726514एफ), 01 जनवरी 2009

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल बलजिन्दर सिंह (जेसी-726524एल),  
01 जनवरी 2009

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल हुसेन अहमद लश्कर (जेसी-726525एन), 01 जनवरी 2009

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल जयदेव शंखारी (जेसी-726560डब्ल्यू),  
01 जनवरी 2009

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल प्रकाश चंद्र सिंह (जेसी-726561वाई),  
01 जनवरी 2009

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल अबिद सोहैल (जेसी-726562एफ),  
01 जनवरी 2009

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल गणेश चंद्र दास (जेसी-726563के),  
01 जनवरी 2009

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल नसिरुद्दीन (जेसी-726418एम),  
05 जनवरी 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 दिसम्बर 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल रनजीत कुमार स्वाइन (जेसी-726497एम), 05 जनवरी 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल राम निवास राम (जेसी-726564एम),  
05 जनवरी 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल सच्चिदानंद प्रसाद (जेसी-726559एफ),  
09 जनवरी 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल जगमाल सिंह (जेसी-726494वाई),  
14 जनवरी 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 दिसम्बर 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल त्रिश पाल (जेसी-726541एल),  
01 फरवरी 2009

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल हाकिम सिंह (जेसी-726542एन),  
01 फरवरी 2009

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल रमाकान्त सिंह (जेसी-726543डब्ल्यू),  
01 फरवरी 2009

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल महिन्दर सिंह (जेसी-726544वाई),  
01 फरवरी 2009

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल राम रूप यादव (जेसी-726586एल),  
01 फरवरी 2009

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल भिष्मपाल सिंह (जेसी-726597एक्स),  
01 फरवरी 2009

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल गुरनैब सिंह (जेसी-726600एम),  
01 फरवरी 2009

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल हरदेव गंगवार (जेसी-726623एन),  
01 फरवरी 2009

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल सुखविंदर सिंह (जेसी-726601पी),  
01 मार्च 2009

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल धरमवीर सिंह (जेसी-726603ए),  
01 मार्च 2009

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल गवानी केम्पना बाबू  
(जेसी-726604एच), 01 मार्च 2009

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल पाटिल नारायण शंकर  
(जेसी-726624डब्ल्यू), 01 मार्च 2009

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल बलबीर सिंह सेखावत  
(जेसी-726626एफ), 01 मार्च 2009

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल सुरेंद्र प्रसाद सिंह (जेसी-726670एल),  
01 मार्च 2009

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल श्याम सुन्दर सिंह (जेसी-726540एच),  
19 मार्च 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल दीपक कुमार मण्डल (जेसी-726565पी),  
20 मार्च 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल सत्यवीर सिंह (जेसी-726636एल),  
01 अप्रैल 2009

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल नायक सुरेश भाई बाबू भाई  
(जेसी-726637एन), 01 अप्रैल 2009

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल रामानंद बिश्वास (जेसी-726639वाई),  
01 अप्रैल 2009

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल ब्रजेश बहादुर सिंह (जेसी-726650एक्स),  
01 अप्रैल 2009

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल चंद्रेश्वर मिश्रा (जेसी-726666एच),  
01 अप्रैल 2009

सूबेदार लिपिक एस कन्ट्रोल राम बाबू (जेसी-726679ए),  
01 अप्रैल 2009

सूबेदार लिपिक एस प्रोविजन राधा कृष्णन (जेसी-726622एल), 24  
मार्च 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी) अम्युनिशन बिलेन्द्र कुमार यादव  
(जेसी-725685एफ), 01 मई 2008

सूबेदार (एसकेटी) अम्युनिशन संजय कुमार (जेसी-725826एल),  
01 मई 2008

सूबेदार (एसकेटी) अम्युनिशन राम प्रीति (जेसी-725722के),  
12 मई 2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मई 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी) अम्युनिशन सोम पाल (जेसी-725662ए),  
16 मई 2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मई 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी) अम्युनिशन हनुमान राम (जेसी-725725एक्स),  
01 जुलाई 2008

सूबेदार (एसकेटी) अम्युनिशन अशोक कुमार (जेसी-725755पी),  
01 जुलाई 2008

सूबेदार (एसकेटी) अम्युनिशन ओम प्रकाश गोदरा  
(जेसी-725754एम), 10 जुलाई 2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी) अम्युनिशन देश राज यादव (जेसी-725793एल),  
06 अगस्त 2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अगस्त 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी) अम्युनिशन धांतम मलकोंड रायडु  
(जेसी-725690एम), 16 अगस्त 2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी) अम्युनिशन ब्रिज मोहन (जेसी-725858एन),  
01 नवम्बर 2008

सूबेदार (एसकेटी) अम्युनिशन अभय सिंह (जेसी-726094एम),  
01 मार्च 2009

सूबेदार (एसकेटी) अम्युनिशन बीरबल राम जाट  
(जेसी-726118एल), 01 मार्च 2009

सूबेदार (एसकेटी) अम्युनिशन वीरेंद्र सिंह (जेसी-726047पी),  
30 मार्च 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी) अम्युनिशन राय सिंह बसेरा (जेसी-726140डब्ल्यू),  
01 अप्रैल 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी) अम्युनिशन रामप्रीत (जेसी-726226पी),  
01 अप्रैल 2009

सूबेदार (एसकेटी) अम्युनिशन प्रदीप कुमार (जेसी-726296एन),  
01 अप्रैल 2009

सूबेदार (एसकेटी) अम्युनिशन बहादुर सिंह (जेसी-726157के),  
05 अप्रैल 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी) एवीएशन सुकुमार चंद्र बिश्वास  
(जेसी-726191के), 12 अप्रैल 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी) इंजीनियर गणेश राम (जेसी-725724पी),  
02 जून 2008\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी) इंजीनियर बाबू सिंह (जेसी-725773एक्स),  
01 सितम्बर 2008

सूबेदार (एसकेटी) इंजीनियर उदय सिंह (जेसी-725774ए),  
01 सितम्बर 2008

सूबेदार (एसकेटी) इंजीनियर जगदीश चंद्र (जेसी-725800डब्ल्यू),  
01 अक्टूबर 2008

सूबेदार (एसकेटी) इंजीनियर लाखन सिंह (जेसी-726036एच),  
01 अक्टूबर 2008

सूबेदार (एसकेटी) इंजीनियर कमल किशोर शर्मा (जेसी-725865के),  
01 जनवरी 2009

सूबेदार (एसकेटी) इंजीनियर कुट्टी कृष्णन परक्कल  
(जेसी-725867पी), 01 जनवरी 2009

सूबेदार (एसकेटी) इंजीनियर सुरेन्द्र सिंह नेगी (जेसी-725871एक्स),  
01 जनवरी 2009

सूबेदार (एसकेटी) इंजीनियर सतीष कुमार (जेसी-726090डब्ल्यू),  
01 मार्च 2009

सूबेदार (एसकेटी) इंजीनियर मोहन सिंह सावंत (जेसी-726016पी),  
30 मार्च 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी) इंजीनियर बसंत कुमार सिंह (जेसी-726091वाई),  
31 मार्च 2009\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी) जी एस एण्ड सी श्यामल राउत  
(जेसी-725345वाई), 01 मार्च 2008\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार (एसकेटी) जी एस एण्ड सी पेमाराम जाट  
(जेसी-725687एम), 01 मई 2008

सूबेदार (एसकेटी) जी एस एण्ड सी रामाधार सिंह राजपूत  
(जेसी-725775एच), 01 सितम्बर 2008

सूबेदार (एसकेटी) जी एस एण्ड सी राम गोपाल सिंह  
(जेसी-725795डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2008

सूबेदार (एसकेटी) जी एस एण्ड सी देवेन्द्र कुमार राउत  
(जेसी-725801वाई), 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार (एसकेटी) जी एस एण्ड सी लक्ष्मी धर प्रधान  
(जेसी-725831डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2008

सूबेदार (एसकेटी) जी एस एण्ड सी सरोज कुमार रावत (जेसी-  
725832वाई), 01 नवम्बर 2008

सूबेदार (एसकेटी) जी एस एण्ड सी रमेश चन्द्र सिंह (जेसी-  
725859डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2008

सूबेदार (एसकेटी) जी एस एण्ड सी प्रसान्त कुमार तुपाकुला (जेसी-  
725835एम), 01 दिसम्बर 2008

सूबेदार (एसकेटी) जी एस एण्ड सी गया सिंह (जेसी-725836पी),  
01 दिसम्बर 2008

सूबेदार (एसकेटी) जी एस एण्ड सी विजयन एम पी  
(जेसी-725837एक्स), 01 दिसम्बर 2008

सूबेदार (एसकेटी) जी एस एण्ड सी किशन चन्द्र शर्मा  
(जेसी-725863वाई), 01 दिसम्बर 2008

सूबेदार (एसकेटी) जी एस एण्ड सी दया राम (जेसी-725866एम),  
01 जनवरी 2009

सूबेदार (एसकेटी) जी एस एण्ड सी अमर सिंह  
(जेसी-725868एक्स), 01 जनवरी 2009

सूबेदार (एसकेटी) जी एस एण्ड सी जगदले सुनील सोपन (जेसी-  
725870पी), 01 जनवरी 2009

सूबेदार (एसकेटी) जी एस एण्ड सी सुल्तान सिंह  
(जेसी-725910एल), 01 फरवरी 2009

सूबेदार (एसकेटी) जी एस एण्ड सी तेजवर सिंह रावत  
(जेसी-725964एम), 01 फरवरी 2009

सूबेदार (एसकेटी) जी एस एण्ड सी हरी ओम (जेसी-726158एम),  
01 अप्रैल 2009

सूबेदार (एसकेटी) जी एस एण्ड सी सुरेन्द्र पाल सिंह  
(जेसी-726236वाई), 01 अप्रैल 2009

- सूबेदार (एसकेटी) जी एस एण्ड सी रामेश्वर दास (जेसी-726265एन), 01 अप्रैल 2009
- सूबेदार (एसकेटी) जी एस एण्ड सी हुकम सिंह बिष्ट (जेसी-726208एम), 08 अप्रैल 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाएगी)
- सूबेदार (एसकेटी) एमटी बाल कृष्णा पाल (जेसी-725488वाई), 17 फरवरी 2008 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाएगी)
- सूबेदार (एसकेटी) एमटी राम सेवक पाल (जेसी-725653वाई), 14 अप्रैल 2008 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जाएगी)
- सूबेदार (एसकेटी) एमटी सुरेन्द्र कुमार (जेसी-725686के), 15 मई 2008 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाएगी)
- सूबेदार (एसकेटी) एमटी गोपाल सिंह राठोर (जेसी-725689एक्स), 01 जून 2008
- सूबेदार (एसकेटी) एमटी नारेन्द्र सिंह रावत (जेसी-725729एन), 01 जुलाई 2008
- सूबेदार (एसकेटी) एमटी परवत सिंह सिसोदिया (जेसी-725756एक्स), 01 जुलाई 2008
- सूबेदार (एसकेटी) एमटी मान सिंह (जेसी-725772पी), 01 जुलाई 2008
- सूबेदार (एसकेटी) एमटी अम्बालाल जंगिद (जेसी-725792एच), 01 जुलाई 2008
- सूबेदार (एसकेटी) एमटी गोपी राम (जेसी-725688पी), 03 जुलाई 2008 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाएगी)
- सूबेदार (एसकेटी) एमटी लक्ष्मण राम कुकना (जेसी-725703आई), 18 जुलाई 2008 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाएगी)
- सूबेदार (एसकेटी) एमटी सुरेश पी पी (जेसी-725856एच), 01 अगस्त 2008
- सूबेदार (एसकेटी) एमटी लिखमा चौधरी (जेसी-725727एच), 04 अगस्त 2008 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)
- सूबेदार (एसकेटी) एमटी धरम पाल (जेसी-725791ए), 08 अगस्त 2008 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)
- सूबेदार (एसकेटी) एमटी हमीर सिंह सोलंकी (जेसी-725704एफ), 08 अगस्त 2008 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)
- सूबेदार (एसकेटी) एमटी रविन्द्र सिंह तोमर (जेसी-725794एन), 22 अगस्त 2008 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाएगी)
- सूबेदार (एसकेटी) एमटी सुभाष सिंह (जेसी-725726ए), 28 अगस्त 2008 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)
- सूबेदार (एसकेटी) एमटी छैल सिंह (जेसी-725728एल), 28 अगस्त 2008 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)
- सूबेदार (एसकेटी) एमटी जाल सिंह (जेसी-725829वाई), 29 अगस्त 2008 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)
- सूबेदार (एसकेटी) एमटी मोहर सिंह (जेसी-725757ए), 16 सितम्बर 2008 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाएगी)
- सूबेदार (एसकेटी) एमटी जय सिंह यादव (जेसी-725797एफ), 01 अक्टूबर 2008
- सूबेदार (एसकेटी) एमटी सुरेश चन्द्र पाल (जेसी-725864एफ), 05 जनवरी 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जाएगी)
- सूबेदार (एसकेटी) एमटी कृष्णा बहादुर सिंह (जेसी-725909डब्ल्यू), 01 फरवरी 2009
- सूबेदार (एसकेटी) एमटी हुकम सिंह (जेसी-726046एम), 01 फरवरी 2009
- सूबेदार (एसकेटी) एमटी कमल कान्त सामल (जेसी-726015एम), 01 मार्च 2009
- सूबेदार (एसकेटी) एमटी रमेश चन्द्र साहू (जेसी-726058एफ), 01 मार्च 2009
- सूबेदार (एसकेटी) एमटी राजन टी पी (जेसी-726088वाई), 01 मार्च 2009

- सूबेदार (एसकेटी) एमटी दयानन्द भारद्वाज (जेसी-726133ए),  
01 मार्च 2009
- सूबेदार (एसकेटी) एमटी नवीन चन्द्र मथपाल (जेसी-726156एफ),  
01 मार्च 2009
- सूबेदार (एसकेटी) एमटी हजारी लाल भागश्र (जेसी-726093के),  
27 मार्च 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2009 से दी जाएगी)
- सूबेदार (एसकेटी) एमटी रमेश कुमार (जेसी-725900एफ),  
28 मार्च 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2009 से दी जाएगी)
- सूबेदार (एसकेटी) एमटी सुभाष बाबू दीक्षित (जेसी-726049ए),  
30 मार्च 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2009 से दी जाएगी)
- सूबेदार (एसकेटी) एमटी आनन्द सिंह (जेसी-726052ए), 30 मार्च  
2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2009 से दी जाएगी)
- सूबेदार (एसकेटी) एमटी किशोर चंद्र राजू (जेसी-726089एफ),  
31 मार्च 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2009 से दी जाएगी)
- सूबेदार (एसकेटी) एमटी एम जोसेफ निकोलस (जेसी-726207के),  
01 अप्रैल 2009
- सूबेदार (एसकेटी) एमटी महेंद्र सिंह (जेसी-726211एम), 01 अप्रैल  
2009
- सूबेदार (एसकेटी) एमटी महीपत सिंह (जेसी-726225एम),  
01 अप्रैल 2009
- सूबेदार (एसकेटी) सिग्नल धरमवीर (जेसी-725612पी), 01 मई  
2008
- सूबेदार (एसकेटी) सिग्नल चवान सुनील अबासाहेब  
(जेसी-725654एफ), 12 मई 2008 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2008 से दी जाएगी)
- सूबेदार (एसकेटी) सिग्नल सुग्रीव सिंह (जेसी-725803के),  
01 अक्टूबर 2008
- सूबेदार (एसकेटी) सिग्नल देवेंद्रपाल सिंह (जेसी-725828डब्ल्यू),  
01 अक्टूबर 2008
- सूबेदार (एसकेटी) सिग्नल प्रकाश नारायण (जेसी-725857एल),  
01 नवम्बर 2008
- सूबेदार (एसकेटी) सिग्नल कन्हैया सिंह (जेसी-725901एल),  
01 नवम्बर 2008
- सूबेदार (एसकेटी) सिग्नल मानसराज घोश (जेसी-725884पी),  
05 नवम्बर 2008 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)
- सूबेदार (एसकेटी) सिग्नल सुरेश कुमार (जेसी-725830एन),  
12 नवम्बर 2008 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)
- सूबेदार (एसकेटी) सिग्नल जयन्त कुमार मिश्रा (जेसी-725873एच),  
01 फरवरी 2009
- सूबेदार (एसकेटी) सिग्नल छदमि लाल (जेसी-725963के),  
01 फरवरी 2009
- सूबेदार (एसकेटी) सिग्नल राजेंद्र सिंह (जेसी-726051एक्स),  
01 मार्च 2009
- सूबेदार (एसकेटी) सिग्नल रविंद्र कुमार पण्डा (जेसी-726227एक्स),  
01 अप्रैल 2009
- सूबेदार (एसकेटी) सिग्नल श्रीकांत पाण्डे (जेसी-726334वाई),  
01 अप्रैल 2009
- सूबेदार (एसकेटी) सिग्नल ओम प्रकाश (जेसी-725948पी),  
11 अप्रैल 2009 \*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2009 से दी जाएगी)
- सूबेदार (एसकेटी) वेपन राजेंद्र प्रसाद (जेसी-725796वाई),  
01 अक्टूबर 2008
- सूबेदार (एसकेटी) वेपन बी बी आर शिव गोण्डापपा  
(जेसी-725834के), 01 दिसम्बर 2008
- सूबेदार (एसकेटी) वेपन प्रकाश (जेसी-725838ए), 01 दिसम्बर  
2008
- सूबेदार (एसकेटी) वेपन कृतिबास परिदा (जेसी-725861एन),  
01 दिसम्बर 2008
- सूबेदार (एसकेटी) वेपन फूल सिंह (जेसी-725869ए), 01 जनवरी  
2009
- सूबेदार (एसकेटी) वेपन सुरेन्द्र यादव (जेसी-725883एम),  
01 जनवरी 2009
- सूबेदार (एसकेटी) वेपन अजीत कुमार दाश (जेसी-725872ए),  
01 फरवरी 2009



सूबेदार (एसकेटी) वेपन उदयवीर सिंह मलिक (जेसी-725904एक्स),  
01 फरवरी 2009

सूबेदार (एसकेटी) वेपन संजय कुमार परिदा (जेसी-726010एन),  
01 फरवरी 2009

सूबेदार (एसकेटी) वेपन मोहम्मद ओहिया (जेसी-726048एक्स),  
01 फरवरी 2009

सूबेदार (एसकेटी) वेपन राजवीर सिंह (जेसी-726192एम),  
01 अप्रैल 2009

सूबेदार (एसकेटी) वेपन ब्रह्मानन्द प्रधान (जेसी-726224के),  
01 अप्रैल 2009

सूबेदार (एसकेटी) वेपन राम राज पाल (जेसी-725885एक्स),  
02 अप्रैल 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार ड्राईवर एमटी मोहम्मद मुशलिम खान (जेसी-726794ए),  
01 मई 2008

सूबेदार ड्राईवर एमटी गणेश प्रसाद मिश्रा (जेसी-726845एच),  
01 मई 2008

सूबेदार ड्राईवर एमटी पद्मनाभन मूथेदथ (जेसी-726864एन),  
01 मई 2008

सूबेदार ड्राईवर एमटी सुरेंद्र सिंह (जेसी-726788एम), 12 मई 2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मई 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार ड्राईवर एमटी अभिराम सेठी (जेसी-726809एक्स), 25 मई  
2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मई 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार ड्राईवर एमटी मनीलाल राय (जेसी-726882डब्ल्यू),  
01 जून 2008

सूबेदार ड्राईवर एमटी राम निवास (जेसी-726963डब्ल्यू), 01 अगस्त  
2008

सूबेदार ड्राईवर एमटी सदाशिव क्रिश्ना हतेकर (जेसी-727020के),  
01 अगस्त 2008

सूबेदार ड्राईवर एमटी हादी राम मोहंता (जेसी-727019पी),  
01 सितम्बर 2008

सूबेदार ड्राईवर एमटी प्रबासी सामल (जेसी-727021एम), 01 सितम्बर  
2008

सूबेदार ड्राईवर एमटी शिव दयाल प्रसाद (जेसी-727022पी),  
01 अक्टूबर 2008

सूबेदार ड्राईवर एमटी योगेंद्र सिंह (जेसी-727148पी), 01 अक्टूबर  
2008

सूबेदार ड्राईवर एमटी शिव रतन सिंह (जेसी-727212एफ),  
01 अक्टूबर 2008

सूबेदार ड्राईवर एमटी कुन्दन सिंह (जेसी-727214एम), 01 अक्टूबर  
2008

सूबेदार ड्राईवर एमटी बिभश मंडल (जेसी-727215पी), 01 अक्टूबर  
2008

सूबेदार ड्राईवर एमटी ज़ोय के एम (जेसी-727219एल), 01 अक्टूबर  
2008

सूबेदार ड्राईवर एमटी मोहम्मद एनामुल कबीर बिस्वास  
(जेसी-727147एम), 01 नवम्बर 2008

सूबेदार ड्राईवर एमटी चन्दर देओराई (जेसी-727217ए), 01 नवम्बर  
2008

सूबेदार ड्राईवर एमटी भक्त बहादुर छत्री (जेसी-727218एच),  
01 दिसम्बर 2008

सूबेदार ड्राईवर स्पेशल रमेश मिश्रा (जेसी-726910एक्स), 01 जून  
2008

सूबेदार ड्राईवर स्पेशल तेज बहादुर सिंह (जेसी-726907एक्स),  
01 अगस्त 2008

सूबेदार ड्राईवर स्पेशल प्रदीप कुमार दोलोई (जेसी-727018एम),  
01 अक्टूबर 2008

सूबेदार ड्राईवर स्पेशल महीपाल सिंह (जेसी-727216एक्स),  
01 नवम्बर 2008

सूबेदार एसएचटी राम नरेश शकिया (जेसी-726729ए), 22 मार्च  
2008 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार एसएचटी रामचन्द्र राय (जेसी-726696ए), 01 मई 2008

सूबेदार एसएचटी चन्द्रमा खुशवाहा (जेसी-726795एच), 01 जुलाई  
2008

सूबेदार एसएचटी पारश नाथ सिंह यादव (जेसी-726916वाई),  
01 जुलाई 2008

सूबेदार एसएचटी विनोद कुमार यादव (जेसी-726964वाई),  
01 अगस्त 2008

सूबेदार एसएचटी बैकुंठ नाथ साहु (जेसी-726909एच), 01 सितम्बर  
2008

सूबेदार एसएचटी गोपीनाथन पिल्ले वी (जेसी-726945एन),  
01 सितम्बर 2008

सूबेदार एसएचटी हरूदानंदा मल्लिक (जेसी-726946डब्ल्यू),  
01 सितम्बर 2008

सूबेदार एसएचटी श्रीपाल सिंह (जेसी-727080वाई), 01 नवम्बर  
2008

सूबेदार एसएचटी मैपाक सिंघा (जेसी-727208वाई), 01 नवम्बर 2008

सूबेदार एसएचटी अर्जुन कुमार (जेसी-727202एक्स), 01 दिसम्बर 2008

सूबेदार एसएचटी रघुबीर सिंह (जेसी-727038ए), 01 जनवरी 2009

सूबेदार एसएच (जीडी) तिल बहादुर छेत्री साकी (जेसी-727028डब्ल्यू), 01 मई 2008\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार एसएच (जीडी) उमेश (जेसी-727083एम), 01 मई 2008

सूबेदार एसएच (जीडी) जोसेफ देवसिया (जेसी-727029वाई), 05 मई 2008\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार एसएच (जीडी) लक्ष्मन सिंह (जेसी-727138एल), 09 मई 2008\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार एसएच (जीडी) राजेश्वर ठाकुर (जेसी-727132के), 01 जून 2008

सूबेदार एसएच (जीडी) गुलाब सिंह (जेसी-727136ए), 01 जून 2008\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार एसएच (जीडी) गनेश चंद्र नाथ (जेसी-727203ए), 01 जून 2008

सूबेदार एसएच (जीडी) शिवदास ढोंडु चौधरी (जेसी-727207डब्ल्यू), 01 जून 2008\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार एसएच (जीडी) डुक्कू माली सुबा राव (जेसी-727211वाई), 18 जून 2008\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार एसएच (जीडी) जयराज एस (जेसी-727139एन), 20 जून 2008\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार एसएच (जीडी) धरम गुजर (जेसी-727145एफ), 25 जून 2008\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार एसएच (जीडी) गोपाल चंद्र घिसिंग (जेसी-727135एक्स), 28 जून 2008\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार एसएच (जीडी) पूरन लाल (जेसी-726724एफ), 01 जुलाई 2008

सूबेदार एसएच (जीडी) चंद्र शेखर (जेसी-727133एम), 01 अगस्त 2008

सूबेदार एसएच (जीडी) शीतला शरन (जेसी-727134पी), 01 अगस्त 2008

सूबेदार एसएच (जीडी) पवार दिनकर मुरलीधर (जेसी-727204एच), 01 अगस्त 2008

सूबेदार एसएच (जीडी) केशव प्रसाद (जेसी-727258के), 01 अगस्त 2008

सूबेदार एसएच (जीडी) जैग नाथ (जेसी-727205एल), 25 अगस्त 2008\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार एसएच (जीडी) महेश्वर प्रधान (जेसी-727206एन), 01 सितम्बर 2008\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार एसएच (जीडी) सुरेश कुमार (जेसी-727243एफ), 01 सितम्बर 2008

सूबेदार एसएच (जीडी) बिजेंदर सिंह (जेसी-727265ए), 01 सितम्बर 2008

सूबेदार एसएच (जीडी) इंद्रजीत मण्डल (जेसी-727266एच), 01 सितम्बर 2008

सूबेदार एसएच (जीडी) जनार्दन नमदेव लवाटे (जेसी-727283एच), 01 सितम्बर 2008

सूबेदार एसएच (जीडी) चंदेश्वर प्रसाद (जेसी-727284एल), 01 सितम्बर 2008

सूबेदार एसएच (जीडी) रमेश चंद्र स्वैन (जेसी-727285एन), 01 सितम्बर 2008

सूबेदार एसएच (जीडी) काशी नाथ बेहेरा (जेसी-727286डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2008

सूबेदार एसएच (जीडी) हरी नारायण जाट (जेसी-727322डब्ल्यू),  
01 सितम्बर 2008

सूबेदार एसएच (जीडी) श्याम सिंह (जेसी-727323वाई), 01 सितम्बर  
2008

सूबेदार एसएच (जीडी) अदया नाथ प्रधान (जेसी-727324एफ),  
01 सितम्बर 2008

सूबेदार एसएच (जीडी) बाबू लाल लाकरा (जेसी-727325के),  
01 सितम्बर 2008

सूबेदार एसएच (जीडी) उग्र सेन भुट्टीआ (जेसी-727326एम),  
01 सितम्बर 2008

सूबेदार एसएच (जीडी) मुकेश चंद (जेसी-727259एम),  
11 सितम्बर 2008\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अगस्त 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार एसएच (जीडी) भुवन चंद्र जोशी (जेसी-727333एच),  
01 अक्टूबर 2008

सूबेदार एसएच (जीडी) हनुमंत पर्सराम पाटिल (जेसी-727373के),  
01 अक्टूबर 2008

सूबेदार एसएच (जीडी) नित्यानंद हल्दर (जेसी-727374एम),  
01 अक्टूबर 2008

सूबेदार एसएच (जीडी) क्रिष्णा पदा दास (जेसी-727411पी),  
01 अक्टूबर 2008

सूबेदार एसएच (जीडी) ब्रिंद्रा लाल शर्मा (जेसी-727281एक्स),  
01 जनवरी 2009

सूबेदार एसएच (जीडी) सुभाष चंद्र प्रधान (जेसी-727343एम),  
01 जनवरी 2009

सूबेदार एसएच (जीडी) राम कुमार सिंह (जेसी-727353डब्ल्यू),  
01 जनवरी 2009

सूबेदार कारपेन्टर यु राजेंद्र सिंह देव्या (जेसी-726378डब्ल्यू),  
01 मार्च 2009

सूबेदार मेटल स्मिथ राम पाल (जेसी-726184एन), 14 सितम्बर  
2008\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार पेंटर यु विजय बहादुर सिंह (जेसी-726054एल), 01 मई  
2008

सूबेदार पेंटर यु मोहम्मद अब्दुल रहमान (जेसी-726785वाई),  
01 जुलाई 2008

सूबेदार पेंटर यु हवलदार सिंह (जेसी-727140एच), 01 जुलाई 2008

सूबेदार ओएलपी गोविंद सिंह (जेसी-727142एन), 01 जून 2008\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अक्टूबर 2007 से दी जाएगी)

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

सूबेदार आरमोरर के रैंक में

नायब सूबेदार यादव सज्जन सिंह पी सिंह (जेसी-760204एच),  
11 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार शिव मुनी राम (जेसी-760201पी), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार कदेर नाथ नायक (जेसी-760200एम), 15 अप्रैल  
2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार अर्जुन प्रसाद (जेसी-760199एच), 11 अप्रैल 2009/  
01 अप्रैल 2009\*

सूबेदार आर्टीजन (ईसी) के रैंक में

नायब सूबेदार पी वी एस आर कृष्ण प्रसाद (जेसी-758617एन),  
17 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार अद्वित्यकर दास (जेसी-760947एल), 11 अप्रैल  
2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार रविन्द्र कुमार राय (जेसी-761219एक्स), 01 अप्रैल  
2009

नायब सूबेदार जयपाल सिंह (जेसी-761142ए), 11 अप्रैल 2009/  
01 अप्रैल 2009\*

सूबेदार आर्टीजन (एनई) के रैंक में

नायब सूबेदार कोतवाल (जेसी-759488एल), 13 अप्रैल 2009/  
01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार शिवप्रसाद रावा (जेसी-759405पी), 15 अप्रैल  
2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार अशोक कुमार सिंह (जेसी-759269के), 01 अप्रैल  
2009

सूबेदार क्लर्क (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार बाल कृष्णन ई (जेसी-757029एन), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार देव नाथ सिंह (जेसी-756849एन), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार हुक्म सिंह (जेसी-757034वाई), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार मुनी लाल सिंह (जेसी-756268डब्ल्यू), 09 अप्रैल  
2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार वेद प्रकाश (जेसी-756267एन), 06 अप्रैल 2009/  
01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार हकीम सिंह (जेसी-757031एल), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार सी राजन (जेसी-757032एन), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार जगबीर सिंह मलिक (जेसी-757033डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार विजय कुमार यादव (जेसी-756848एल), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार भानु प्रताप सिंह (जेसी-756689वाई), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार रोहिताश कुमार (जेसी-756694के), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार एम डी अस्ताम खान (जेसी-756846ए), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार बिकाश दास (जेसी-756266एल), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार सतीश चंदर (जेसी-756269वाई), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार राम प्यारे तिवारी (जेसी-756847एच), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार फूल सिंह नायक (जेसी-758620एन), 06 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009\*

सूबेदार (डी डब्ल्यू) के रैंक में

नायब सूबेदार बन्सीधर (जेसी-761148एफ), 30 मार्च 2009/01 फरवरी 2009\*

नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जेसी-761021वाई), 29 मार्च 2009/03 दिसम्बर 2008\*

सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में

नायब सूबेदार संजीव कुमार पटनायक (जेसी-757332पी), 18 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार राज कुमार धीमन (जेसी-757344के), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार चंदर प्रकाश (जेसी-757561ए), 13 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-757971डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार जगदीश यादव (जेसी-757972वाई), 09 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार सुभाष चंद (जेसी-757166एम), 17 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार बल राज सिंह (जेसी-757324डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार राम चंदर सिंह (जेसी-757562एच), 15 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार शंकर पाटिल (जेसी-757330के), 10 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार मायाधर नायक (जेसी-757042एक्स), 13 अप्रैल 2009/01 मार्च 2009\*

नायब सूबेदार हरबीर सिंह (जेसी-757044एच), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार अजीत प्रताप सिंह (जेसी-758140के), 06 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार क्रान्ती कुमार (जेसी-757202एम), 12 अप्रैल 2009/01 मार्च 2009\*

नायब सूबेदार प्रताप नारायण (जेसी-758059एक्स), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार सुरेन्द्रन पी आर (जेसी-757329पी), 11 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार दिनेश यादव (जेसी-757327के), 02 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार पाटिल लाहू महादेव (जेसी-756961ए), 26 मार्च 2009/01 मार्च 2009\*

नायब सूबेदार शमशेर सिंह (जेसी-757348ए), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार किशोरी लाल (जेसी-757201के), 25 मार्च 2009/01 मार्च 2009\*

नायब सूबेदार सल्लाम खान (जेसी-756915एल), 08 अप्रैल 2009/01 मार्च 2009\*

सूबेदार टैक के रैंक में

नायब सूबेदार सुरेश चौहान (जेसी-758684वाई), 15 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार रन्जीत कुमार दास (जेसी-758530एम), 01 मई 2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार नवेन्दु कुमार आचार्य (जेसी-758508एफ), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार बजरंग सिंह (जेसी-758587एफ), 20 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार राम अवतार (जेसी-758540डब्ल्यू), 08 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार महेश सिंह (जेसी-758465एक्स), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार सुरिन्दर कुमार (जेसी-758460वाई), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार कन्हैया राम (जेसी-758529एक्स), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार भरत लाल राय (जेसी-758469एन), 14 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार राजेश कुमार पाण्डे (जेसी-758618डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार विन्दु कुमार (जेसी-758509के), 11 अप्रैल 2009/ 01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार सुभासीस घातक (जेसी-758541वाई), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार राजेश कुमार भकुरी (जेसी-758994के), 20 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार विजय बहादुर (जेसी-758347के), 01 मार्च 2009

नायब सूबेदार सरोज कुमार साहू (जेसी-758538वाई), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-758526के), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार अन्जन कुमार नायक (जेसी-758464पी), 11 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार बाबू एम एस (जेसी-758847एफ), 11 अप्रैल 2009/ 01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार सुकान्त कुमार मिश्रा (जेसी-758466ए), 06 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार मनोहरन वी (जेसी-758627एक्स), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार सुधीर कुमार (जेसी-758688पी), 13 अप्रैल 2009/ 01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार श्री सुभाष सिंह (जेसी-758536एन), 08 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार बिपिन बिहारी कबी (जेसी-758791ए), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार मृनाल कान्ती पती (जेसी-758462के), 20 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार विजय सिंह चाहार (जेसी-758687एम), 15 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार सुक्कू लाल (जेसी-758468एल), 18 अप्रैल 2009/ 01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार भास्कर दत्त (जेसी-758461एफ), 01 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार तपन कुमार पाल (जेसी-758790एक्स), 01 अप्रैल 2009

\*(पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है)

नन्द किशोर कश्मीरा  
अपर सचिव

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 113, दिनांक 17 फरवरी 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

निम्नलिखित वैज्ञानिक 'बी' को उनके नाम के सामने दर्शाए गए दिनांक से रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में वैज्ञानिक 'सी' के रूप

में वेतनमान रुपए 15,600--39,100/- (पे बैंड-3) + 6,600/- ग्रेड पे रुपए :-

नाम	स्थापना/प्रयोगशाला	दिनांक
1	2	3
श्री आदर्शवीर सिंह	ए.डी.आर.डी.ई. आगरा	01.07.2009
श्री गुरदीप सिंह	ए.डी.आर.डी.ई. आगरा	01.07.2009
श्री आशुतोष कुमार	ए.डी.आर.डी.ई. आगरा	01.07.2009
श्री मनोहर सिंह जगत	ए.डी.आर.डी.ई. आगरा	01.07.2009
श्री सुदर्शन कुमार	ए.डी.आर.डी.ई. आगरा	01.07.2009
श्री देवेन्द्र कुमार	ए.डी.आर.डी.ई. आगरा	01.07.2009
श्री अमित कुमार	ए.डी.आर.डी.ई. आगरा	01.07.2009
श्री अजित गौड़	ए.डी.आर.डी.ई. आगरा	01.07.2009
श्री दानस्वरंग गोयरी	डी.आई.बी.ई.आर. हल्द्वानी	01.07.2009
श्री दिनेश द्विवेदी	डी.ई.ए.एल., देहरादून	01.07.2009
श्री अश्विनी आनंद	डी.ई.ए.एल., देहरादून	01.07.2009
श्री ईमरान शरीफ	डी.ई.ए.एल., देहरादून	01.07.2009
श्री सुरेश कुमार पटेल	डी.ई.ए.एल., देहरादून	01.07.2009
श्री वेद प्रकाश	डी.ई.ए.एल., देहरादून	01.07.2009
श्रीमती स्निग्धा मंडल	डी.ई.ए.एल., देहरादून	01.07.2009
श्री शैलेन्द्र कुमार गौतम	डी.ई.ए.एल., देहरादून	01.07.2009
कु. कल्पना कलसी	डी.ई.ए.एल., देहरादून	01.07.2009
श्री गौरव मित्तल	डी.ई.ए.एल., देहरादून	01.07.2009
श्री राजेश राय	डी.ई.ए.एल., देहरादून	01.07.2009
श्री ललित कुमार	डी.ई.ए.एल., देहरादून	01.07.2009
श्री सुनील कुमार गुप्ता	डी.ई.ए.एल., देहरादून	01.07.2009
श्री तरुण कौशिक	डी.ई.ए.एल., देहरादून	01.07.2009
श्री देवेन्द्र कुमार गैंगवार	डी.ई.ए.एल., देहरादून	01.07.2009
श्री सुनील कुमार सोनी	डी.ई.ए.एल., देहरादून	01.07.2009
श्री अजय शर्मा	डी.ई.ए.एल., देहरादून	01.07.2009
श्री धर्म वीर सिंह	डी.ई.ए.एल., देहरादून	01.07.2009
श्री सोहन लाल बोराना	डी.एल.जे., जोधपुर	01.07.2009
श्री अमित कुमार साध	डी.एल.जे., जोधपुर	01.07.2009
श्री मानवेन्द्र शर्मा	डी.एल.जे., जोधपुर	01.07.2009
श्री कुलभूषण प्रजापति	डी.एल.जे., जोधपुर	01.07.2009

1	2	3
श्री लोकेश सैनी	डी.एल.जे., जोधपुर	01.07.2009
श्री सुरेन्द्र सिंह बारला	डी.एल.जे., जोधपुर	01.07.2009
डॉ. राजेश कुमार	डी.एल.जे., जोधपुर	01.07.2009
कु. योजना जानु	डी.एल.जे., जोधपुर	01.07.2009
डॉ. (मिस) संध्या सोंगरा	डी.एल.जे., जोधपुर	01.07.2009
श्री मृणाल कुमार दास	डी.एल.जे., जोधपुर	01.07.2009
श्री अशोक नामलोट	डी.आर.एल., तेजपुर (असम)	01.07.2009
श्री शीतल कुमार गर्ग	आई.एन.एस., शिवाजी	01.07.2009
श्री अनिल कुमार	आई.एन.एस., शिवाजी	01.07.2009
श्री जी प्रताप कुमार	आई.एन.एस., शिवाजी	01.07.2009
श्री चंदर किशोर जोशी	आई.आर.डी.ई., देहरादून	01.07.2009
श्रीमती किरण पांडे	आई.आर.डी.ई., देहरादून	01.07.2009
श्री विवेक सिंह	आई.आर.डी.ई., देहरादून	01.07.2009
श्री अरुण कुमार	आई.आर.डी.ई., देहरादून	01.07.2009
श्री जन्मेजय शर्मा	आई.आर.डी.ई., देहरादून	01.07.2009
श्री संजय धीमान	आई.आर.डी.ई., देहरादून	01.07.2009
कु. कविता शाक्य	आई.आर.डी.ई., देहरादून	01.07.2009
श्री सौरभ वर्मा	आई.आर.डी.ई., देहरादून	01.07.2009
श्री विमल कांत मिश्रा	आई.आर.डी.ई., देहरादून	01.07.2009
श्री रौचिन महेन्द्रा	आई.आर.डी.ई., देहरादून	01.07.2009
श्री अजय मिश्रा	आई.आर.डी.ई., देहरादून	01.07.2009
श्री संतोष कुमार	आई.आर.डी.ई., देहरादून	01.07.2009
श्री मुनीश कुमार	आई.आर.डी.ई., देहरादून	01.07.2009
श्री सुभाष कुमार गौतम	आई.आर.डी.ई., देहरादून	01.07.2009
श्री नीरज पांडे	आई.आर.डी.ई., देहरादून	01.07.2009
श्री निराकरा सुबुधी	आई.टी.आर., बालासोर	01.07.2009
श्री संजीत कुमार साहा	आई.टी.आर., बालासोर	01.07.2009
श्री अमित सरदार	आई.टी.आर., बालासोर	01.07.2009
श्री आशिष कुमार वाजा	आई.टी.आर., बालासोर	01.07.2009
श्री राज कुमार दत्ता	आई.टी.आर., बालासोर	01.07.2009
श्री सचिन कुमार	सासे, चंडीगढ़	01.07.2007
श्री अतुल कुमार तोमर	सासे, चंडीगढ़	01.07.2007
श्री सयेद अलफर डनियाल	सासे, चंडीगढ़	01.07.2007
श्री चासमाई मोइज हतिम	सासे, चंडीगढ़	01.07.2007

टी अब्दुर्ज्जाक  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

### सेना शाखा

सं. 114, दिनांक 17 फरवरी 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की दिनांक 28 दिसम्बर 2007 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

विरेन्द्र सुहाग (एमएस-15032ए) (एमआर-08894डब्ल्यू), एएमसी, 12 अप्रैल 2005, वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 12 अप्रैल 2002 से हो जाएगी। इसमें डॉ. ऑफ मेडीसन (रेडियोथैरेपी) के लिए दी गई 36 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 14 जुलाई 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की दिनांक 05 दिसम्बर 2008 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं:-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

वरुण भाई पटेल (एमएस-15233वाई), (एमआर-08897के), एएमसी, 20 जनवरी 2006

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 फरवरी 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

सर्जन लेफ्टि के पद पर

अमीत कुमार अग्रवाल (एमएस-15103डब्ल्यू), (एमआर-08760एक्स), (75904एच), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 11 नवम्बर 2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

प्रशान्त वशिष्ठ (एमएस-15165डब्ल्यू), (एमआर-08763एल), (75903एफ), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 फरवरी 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

यश पांडे

त्रिगेडियर

उप महानिदेशक ससेचिसे (मास)

## सेना शाखा

सं. 115, दिनांक 17 फरवरी 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवा निवृत्ति की साधारण आयु प्राप्त कर लेने के पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से सेना सेवा से त्याग पत्र देने की अनुमति प्रदान करते हैं:--

## नियमित सेना

## स्थायी कमीशन/डब्ल्यूएसईएस(ओ)

(डब्ल्यूएस-00567) मेजर वीनस सेन्जेम, इंजीनियर्स, 19 फरवरी 2009(अ.प्र)

(आईसी-64832) मेजर आनन्द एस वी, इंजीनियर्स, 01 जुलाई 2009

(डब्ल्यूएस-01035) लेफ्टि. अर्चना कुमारी मिश्रा, एओसी, 17 दिसम्बर 2006(अ.प्र)

## स्थायी कमीशन

(आईसी-61069) मेजर मुशताक अहमद खान, एसएम इन्फैन्ट्री, 07 जुलाई 2009

(आईसी-60472) मेजर सौमसिंश गोस्वामी, इन्फैन्ट्री, 24 दिसम्बर 2007

(आईसी-58634) मेजर सौरभ बट्टा, इन्फैन्ट्री, 27 नवम्बर 2007(अ.प्र)

(आईसी-61007) मेजर मितेश कुमार सिन्हा, इन्फैन्ट्री, 15 नवम्बर 2008(अ.प्र)

(आईसी-58791) मेजर जेम्स जेरी आई नेक, इन्फैन्ट्री, 27 मई 2008(अ.प्र)

(आईसी-61702) मेजर अरविन्द कुमार तिवारी, इन्फैन्ट्री, 21 जून 2009(अ.प्र)

एस के चक्रवर्ती  
संयुक्त निदेशक  
एम एस/पी आर

## थल सेना शाखा

## इलैक्ट्रॉनिकी और यांत्रिक अभियंता कोर

सं. 116, दिनांक 17 फरवरी 2010--राष्ट्रपति, द्वारा श्रीमती जी माधुमिता, सहायक कार्यकारी अभियंता का रक्षा मंत्रालय के ई.एम.ई. कोर में 20 दिसम्बर 2006 (अपराह्न) से त्याग-पत्र स्वीकृत किया जाता है।

एन के कश्मीरा  
अवर सचिव

## वित्त प्रभाग

सं. 117, दिनांक 18 फरवरी 2010--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में श्री एस सी ढीगरा, निजी सचिव को उनकी अधिवर्षिता की

आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31 अक्टूबर 2009 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

आर सी मीना  
सहायक वित्तीय सलाहकार (स्था.)

## सेना शाखा

सं. 118, दिनांक 18 फरवरी 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवा निवृत्ति की साधारण आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से सेना सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं:--

## नियमित सेना

## स्थायी कमीशन

(आईसी-45147) ले कर्नल एम वी कुमार, ईएमई, 09 जून 2009(अ.प्र)

(आईसी-41790) कर्नल अरविन्द माथुर, ईएमई, 11 जुलाई 2009(अ.प्र)

(आईसी-39658) कर्नल (टीएस) माईकल थईयल, इन्फैन्ट्री, 03 नवम्बर 2007(अ.प्र)

(आईसी-54055) मेजर सौरभ श्रीवास्तव, इन्फैन्ट्री, 29 अप्रैल 2008(अ.प्र)

(आईसी-44577) ले कर्नल कल्याण श्रीकान्त पीट्रे, इन्फैन्ट्री, 04 जुलाई 2009(अ.प्र)

(आईसी-45836) ले कर्नल गिरीश पराशर, इन्फैन्ट्री, 21 जनवरी 2009(अ.प्र)

(आईसी-47285) ले कर्नल कौशिक सिरकार, इन्फैन्ट्री, 10 जनवरी 2008(अ.प्र)

(आईसी-45810) ले कर्नल सुनील एन टन्डले, इन्फैन्ट्री, 21 अगस्त 2007(अ.प्र)

(आईसी-45199) ले कर्नल पी वी सथीसन, एसएम इन्फैन्ट्री, 23 फरवरी 2007(अ.प्र)

(आईसी-44683) ले कर्नल अतुल यादव, इन्फैन्ट्री, 12 नवम्बर 2007

(आईसी-44333) ले कर्नल एम शशिधर राव, इन्फैन्ट्री, 25 अगस्त 2007(अ.प्र)

(आईसी-43342) ले कर्नल राकेश राना, इन्फैन्ट्री, 30 मार्च 2007(अ.प्र)

(आईसी-53012) मेजर अमित सिंघ नेगी, इन्फैन्ट्री, 15 मई 2007(पू.व)

(आईसी-53706) मेजर सुरजीत बोस, इन्फैन्ट्री, 05 जनवरी 2008(अ.प्र)

(आईसी-47896) ले कर्नल संदीप मिश्रा, एसी, 11 जुलाई 2009(अप्र)

(आईसी-41459) कर्नल (टीएस) भूपेन्द्र कुमार देसाई, ईएमई, 04 जुलाई 2009(अप्र)

(आईसी-37582) ले कर्नल रविन्द्र जसरोटिया, इन्फैन्ट्री, 09 जून 2009(अप्र)

(आईसी-43897) ले कर्नल संदीप सूद, मैक इन्फैन्ट्री, 21 जुलाई 2009(अप्र)

(आईसी-47260) ले कर्नल अनुराग अस्थाना, सिग्नल्स, 06 अगस्त 2008

(आईसी-47356) ले कर्नल एच पी सिंह, सिग्नल्स, 21 जनवरी 2009(अप्र)

(आईसी-48424) ले कर्नल भरत सिंह, एओसी, 04 जुलाई 2009(अप्र)

(आईसी-41761) ले कर्नल जतिन्दर सिंह, इन्ट, 26 मई 2007(अप्र)

(आईसी-44633) ले कर्नल राजेश खुराना, इंजीनियर्स, 04 सितम्बर 2007(अप्र)

(आईसी-41933) ले कर्नल अजीत बी मेनन, इंजीनियर्स, 15 अप्रैल 2007(अप्र)

(आईसी-43308) ले कर्नल नरेश कुमार, इंजीनियर्स, 05 जनवरी 2008(अप्र)

(आईसी-42983) ले कर्नल ए के दत्ता, इंजीनियर्स, 29 मार्च 2009(अप्र)

(आईसी-45995) ले कर्नल बी बी नरसिन्हा राव, इंजीनियर्स, 19 मई 2009(अप्र)

(आईसी-47445) ले कर्नल राजीव गुप्ता, इंजीनियर्स, 08 जुलाई 2009(अप्र)

(आईसी-48450) ले कर्नल वाई एस एस राव, इंजीनियर्स, 13 जून 2009(अप्र)

(आईसी-47964) ले कर्नल एम डी बिपिन, इंजीनियर्स, 20 जुलाई 2009(अप्र)

(आईसी-47452) ले कर्नल अभिजीत मित्रा, सिग्नल्स, 06 अगस्त 2008(अप्र)

(आईसी-37705) कर्नल (टीएस) ए एम पेन्धारकर, मैक इन्फैन्ट्री, 20 जुलाई 2009(अप्र)

(आईसी-40477) ले कर्नल वी वी रमन, इंजीनियर्स, 04 फरवरी 2007(अप्र)

(आईसी-41871) ले कर्नल पी एस डिल्लन, इंजीनियर्स, 04 जुलाई 2009(अप्र)

(आईसी-42878) कर्नल अरविन्द मोहन, सिग्नल्स, 10 जनवरी 2009(अप्र)

(आईसी-44103) ले कर्नल राजील सिन्घले, सिग्नल्स, 04 जुलाई 2009(अप्र)

एस के चक्रवर्ती  
संयुक्त निदेशक  
एम एस/पी आर

सं. 119, दिनांक 18 फरवरी 2010--

ले से कप्तान

शुद्धि-पत्र

भारत के राजपत्र में दिनांक 14 जनवरी 2006 को शीर्षक "नियमित सेना स्थायी कमीशन" एवं उप शीर्षक "ले से कप्तान" के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:--

विरुद्ध : एसएल-04740 राजबीर सिंह, टीईओएडी, आर्टी  
के बदले : 05 जुलाई 2003 वरीयता दिनांक 14 जनवरी 2000 से बिना वेतन एवं भत्ते के।  
पढ़ा जाए : 05 जुलाई 2003 वरीयता दिनांक 14 जनवरी 2000 से वेतन एवं भत्ते के साथ।

जसवन्त सिंह  
संयुक्त निदेशक  
एमएस-8सी



## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 6th March 2010

## ARMY BRANCH

No. 101, dated 9th February, 2010—The President is pleased to make the following appointments under the provision of AI 3/S/70 as amended and AG/PS-2 (a) Letter No. B/32313/PC/AG/PS-2(a) dated 23rd Feb 2007:—

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION

The undermentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Maj wef 04 Sep 2009, on relinquishing their SSC wef 04 Sep 2009:—

SS No., IC No., Name and Arm/Services

SS-38124Y, IC-56502P, Swapan Kumar Saxena, Arty

SS-38157K, IC-56506L, Suresh Kumar, EME

SS-38172Y, IC-56509Y, KR Kodhandaraman, Inf

SS-38191K, IC-56510N, Satyajit Swain, Mech Inf

SS-38199W, IC-56523L, Alip Kumar Roy, Engrs

The date of seniority in respect of above mentioned officers will be as follows:—

Date for increments of pay - 04 Sep 1999

Date for promotion after depressing - 04 May 2001

12 months seniority

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission in 10th years alongwith the officers of their batch granted PC in the 8th years, will however remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission to SSC-68 (Non Tech) Course.

The President is pleased to make the following appointment under the provisions of SAI 7/S/66 as amended:—

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION

The undermentioned SSCO is granted Permanent Commission in the rank of Maj wef 04 Sep 2009, on relinquishing their SSC wef 04 Sep 2009:—

SS No., IC No., Name and Arm/Service

SS-37972, IC-56318K, Deepak Kandpal, Engrs

The date of seniority in respect of above mentioned officer will be as follows:—

The date of increment of pay - 07 Nov 1998

The date for promotion - 07 Nov 1998

(After depressing 12 months seniority with respect to the date of

seniority assigned to the officer of his batch who was granted permanent commission on completion of 5 years of service)

The President is pleased to make the following appointment under the provisions of SAI 3/S/70 as amended and AI 12/2001:—

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION

The under mentioned Short Service Commissioned Officer have been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 03 Jul 2009, on relinquishing his Short Service Commission wef 03 Jul 2009:—

SS No., IC No., Name and Arms/Services

SS-39290Y, IC-65472K, Harvinder Singh, Inf

The date of seniority in respect of above mentioned officer will be as follows:—

Date of increment of pay - 01 Sep 2001

Date for promotion - 01 May 2003

(After depressing 12 months seniority with respect to the date of seniority assigned to the officer of his batch who was granted permanent commission on completion of 5 years of service)

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officer granted Permanent Commission during 8th years for his course of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The undermentioned Short Service Commissioned Officer have been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 20 Mar 2009, on relinquishing his Short Service Commission wef 20 Mar 2009:—

SS No., IC No., Name and Arms/Services

SS-40546H, IC-66055K, Sarfraz Singh Sanghera, Inf

The date of seniority in respect of above mentioned officer will be as follows:—

Date of increment of pay - 20 Mar 2004

Date for promotion - 20 Oct 2004

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officer granted Permanent Commission during 5th years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The undermentioned Short Service Commissioned Officer have been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 03 Jul 2009, on relinquishing his Short Service Commission wef 03 Jul 2009 :—

SS No., IC No., Name and Arms/Services

SS-39037X, IC-65286N, Rajesh Kumar, Inf

The date of seniority in respect of above mentioned officer will be as follows :—

Date of increment of pay - 03 Mar 2001

Date for promotion - 03 Nov 2002

(After depressing 12 months seniority with respect to the date of seniority assigned to the officer of his batch who was granted permanent commission on completion of 5 years of service)

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officer granted Permanent Commission during 8th years batch of service for his course will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The undermentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 03 Jul 2009, on relinquishing their Short Service Commission wef 03 Jul 2009 :—

SS No., IC No., Name and Arms/Services

SS-39368Y, IC-65476A, Abhishek Misra, Inf

SS-39393X, IC-65478L, Praveen Kumar Dubey, Inf

SS-39458A, IC-65484Y, Dharmendra Singh, Inf

SS-39461A, IC-65485F, Avneet Singh Mehta, Mech Inf

The date of seniority in respect of above mentioned officers will be as follows :—

Date of increment of pay - 01 Sep 2001

Date for promotion - 01 May 2003

(After depressing 12 months seniority with respect to the date of seniority assigned to the officers of their batch who were granted permanent commission on completion of 5 years of service)

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission during 8th years for their course of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The President is pleased to make the following appointments under the provisions of SAI 7/S/66 as amended :—

#### REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION

The undermentioned Short Service Commissioned Officers are granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 17 Sep 2009, on relinquishing their Short Service Commissioned Officers wef 17 Sep 2009 :—

SS No., IC No. allotted, Name and Arms/Services

SS-40820P, IC-66150W, Anupam Sharma, Sigs

SS-40822A, IC-66151Y, Dinesh Kumar, Engrs

SS-40827Y, IC-66153K, N Ashok, EME

SS-40829K, IC-66154M, Alok Kumar, Engrs

SS-40831F, IC-66156X, Gaurav Thakur, Sigs

SS-40832K, IC-66157A, Om Prakash Yadav, Sigs

SS-40834P, IC-66158H, Gaurav Moudgil, Sigs

SS-40836A, IC-66159L, Saurabh Lohani, Sigs

SS-40840H, IC-66161H, Agashe Bipin Vinay, Engrs

SS-40843W, IC-66163N, Alankar Vilas Umdekar, Sigs

SS-40846K, IC-66165Y, Vinay Kumar Sharma, Sigs

SS-40847M, IC-66166F, Deshmukh Yogendra Anil, EME

SS-40849X, IC-66167K, Mahesh BA, Engrs

SS-40850M, IC-66168M, Sandeep B G, EME

SS-40862F, IC-66173X, Ananthakeshava B N, Sigs

The date of seniority in respect of above mentioned officers will be as follows :—

Date of increment of pay - 17 Oct 2002

Date for promotion - 17 Oct 2002

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 5 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The undermentioned Short Service Commissioned Officer is granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 20 Mar 2009, on relinquishing his Short Service Commission wef 20 Mar 2009 :—

SS No., IC No. allotted, Name and Arms/Services

SS-40522Y, IC-66042M, Jiju Varghese, EME

The date of seniority in respect of above mentioned officer will be as follows :—

Date of increment of pay - 20 Apr 2002

Date for promotion - 20 Apr 2002

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officer granted Permanent Commission after 5th years of service will remain same as

allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

VS RANADE  
Col  
Col MS 7

**CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL  
ENGINEERS BRANCH**

No. 102, dated 9th February 2010—The President is pleased to make the following appointments:—

**REGULAR ARMY  
SPECIAL LIST**

To be Nb Sub (Religious Teachers)

Bipin Kumar Pandey (JC-761090P), 07 Apr 2007  
Rajesh Kumar Tiwari (JC-761501H), 08 Sep 2007  
Akhileshwar Trivedi (JC-761502L), 08 Sep 2007  
Shyam Sunder Pandey (JC-761503N), 08 Sep 2007  
Vijay Kumar Dwivedi (JC-761504W), 08 Sep 2007  
Dhirendra Kumar Pandey (JC-762131A), 22 Mar 2008  
Adesh Kumar Pandey (JC-762133L), 22 Mar 2008  
Vinod Kumar Swami (JC-762135W), 22 Mar 2008  
Rakesh Prasad (JC-761718M), 01 Dec 2007  
Ravikant Sharma (JC-761720K), 01 Dec 2007  
Mukesh Kumar Tripathi (JC-761719P), 01 Dec 2007  
Santosh Kumar Tiwari (JC-762132H), 22 Mar 2008  
Shriom Tripathi (JC-762134N), 22 Mar 2008

N K KASHMIRA  
Under Secy

**NAVY BRANCH  
INTEGRATED HQRS—MoD (NAVY)**

No. 103, dated 10th February 2010—The President is pleased to appoint Shri Sunil Bhalla, Personal Assistant, of AFHQ Stenographers' Service as Private Secretary (Group 'B' Gazetted in the Pay Scale of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/-) w.e.f. 19.1.2009.

ARCHANA RAI  
Dy CAO (A)

No. 104, dated 10th February 2010—Consequent on his premature repatriation, the services of Shri V. K. Tiwary, IPoS(88), Director, Ministry of Defence, are placed at the disposal of the Department of Posts w.e.f. 30.10.2009 (AN) on account of his promotion to Senior Administrative Grade.

K MURALI  
Under Secy

**ARMY BRNACH**

No. 105, dated 11th February 2010—The President is pleased to make the following promotions:—

**REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION**

Lt Col to be Substantive Col (By Selection)

Pers No., Name, Arm and Subs Date  
IC-45579 James Anil E, Inf, 01 May 2007  
IC-43738 S Parthasarathy, Sigs, 01 May 2007  
IC-43669 Shiv Pal Singh, Inf, 01 May 2007  
IC-44445 S Arya, AEC, 10-08-07 but seniority wef 01.05.07 without effect on pay & pension  
IC-45628 PK Malhotra, AC, 01 May 2007  
IC-42766 Rajesh Puri, EME, 15.08.2006  
IC-42767 Anil Hooda, AC, 02.02.07 but seniority wef 15.08.06 without effect on pay & pension

T K DAS  
Dy Director  
MS-8A

**ARMY BRANCH**

No. 106, dated 11th February 2010—The President is pleased to make the following promotion :—

**REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION  
(ARMY MEDICAL CORPS)**

Lt Col to be Col (Selection & equivalent)

Gurvinder Singh (MR-05571H), 05 Sep 2008 with notional seniority without effect on pay & pension from 05 Jun 2008.

YASH PANDE  
Brig  
Dy DG AFMS(HR)

**ARMY BRANCH**

No. 107, dated 12th February 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

**REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION**

Lt Col to be Substantive Col (By Time Scale)  
IC-37859W Lt Col P R Sharma, Engrs, 27 Oct 2005  
Major to be Substantive Lt Col (Time Scale)  
IC-45005L Maj Hardeep Singh, Inf, 26 Apr 2003

JASWANT SINGH  
Dy Dir  
MS-8A

## ARMY BRANCH

No. 108, dated 12th February 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

## TERRITORIAL ARMY

## TERRITORIAL COMMISSION

To be Lt Col

Maj J Chakraborty, TA(M)-1204, AMC (TA), 02 Apr 2009

Maj R K Manohar, TA(M)-1179, AMC (TA), 18 Dec 2008

Maj Rajiv Kumar Gupta, TA(M)-1176, AMC (TA), 16 Dec 2004

Maj Sohan Singh, TA(M)-1200, AMC (TA), 25 Jul 2007

Maj M K Das, TA(M)-1203, AMC (TA), 05 Mar 2009

To be Major

Capt Sohan Singh, TA(M)-1200, AMC (TA), 25 Jul 2000

Capt Amritpal Singh, TA(M)-1207, AMC (TA), 29 Apr 2008

Capt R Talukdar, TA(M)-1211, AMC (TA), 25 Aug 2009

JAI RAJ  
Under Secy

## ARMY BRANCH

No. 109, dated 15th February 2010—The President is pleased to make the promotions of the undermentioned AMC officers with effect from the date mentioned against their names :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

Surg Lt Cdr to be Surg Cdr

Nilanjan Roy (MR-06918W) (75617F), AMC, 04 Jul 2008

To be Maj

Adarsh Sharma (MS-15041F) (MR-08899P), AMC, 12 Oct 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 04 Apr 2009 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Virender Suhag (MS-15032A) (MR-08894W), AMC, 12 Apr 2006

(MoD Notification published in Gazette of India dated 08 Sep 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

YASH PANDE  
Brig  
Dy DG AFMS (HR)

## ARMY BRANCH

No. 110, dated 15th February 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

Capt to be Maj

IC No., Name, Arm and Subs Maj wef

IC-61788 Ravindra Singh, Arty, 08 Dec 2007

IC-62349 Arneesh Mohan Saini, AC, 08 Jun 2008

IC-62615 Raj Kumar, Inf, 10 Dec 2008

IC-62803 Abhay Juyal, AOC, 10 Dec 2008

IC-63191 Shona George, Arty, 14 Jun 2009

IC-65607 Deepu K, Inf, 02 Nov 2008

IC-65639 Aditya Kapoor, AC, 02 Nov 2008

Lt to be Capt

IC No., Name and Arms/Services

IC-70671 Tarshem, AAD

IC-70686 Gurjant Singh, Sigs

IC-70705 Goregaonkar Abhishek Prafulla, Sigs

IC-70709 Sainath Kittur, Engrs

IC-70729 Bhupendra Kumar, Engrs

IC No., Name, Arm/Service and Date of Subs Capt

IC-68369 Aniruddha A Moroney, Engrs, 10 Jun 2008  
(with pay & allowance 13 Jun 2008)

JASWANT SINGH  
Jt Dir  
MS-8C

## ARMY BRANCH

No. 111, dated 16th February 2010—The President is pleased to make the promotions of the undermentioned AMC officers with effect from the date mentioned against them :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

To be Surg Lt

Siddharth Mukherji (MR-08675P) (75978A), AMC, 01 Feb 2009

V A Arun (MR-08628X) (75971K), AMC, 01 Feb 2009

YASH PANDE  
Brig  
Dy DG AFMS (HR)

## ARMY BRANCH

No. 112, dated 16th February 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

## REGULAR ARMY

## ARMY ORDNANCE CORPS

To be Substantive Subedar Major

Sub Maj AT Rajinder Singh (JC-723276P), 15 Aug 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Maj AT Santosh Kumar Singh (JC-722986A), 09 Sep 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Maj Clk GD Ram Sunder (JC-723773Y), 28 Apr 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Maj Clk GD Subhash Chandra Guleria (JC-723784L), 01 Jun 2008

Sub Maj Clk GD Sankar Kumar Paul (JC-723788F), 01 Jul 2008

Sub Maj Clk GD Shinghe Bhagavant Shankar (JC-723785N), 01 Jul 2008

Sub Maj Clk GD Ratneshwar Prasad Singh (JC-723713K), 01 Jul 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Maj Clk GD Shyam Sunder Gour (JC-723859X), 04 Jul 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Maj Clk GD Partap Singh (JC-723934W), 05 Jul 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Maj Clk GD Ram Naresh Prasad Singh (JC-723860M), 01 Aug 2008

Sub Maj Clk GD Laxmi Kanta Behera (JC-723898W), 03 Aug 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Maj Clk GD Ravinder Singh (JC-723901L), 01 Sep 2008

Sub Maj Clk GD M D Ekramul Hoq (JC-723905F), 06 Sep 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Maj Clk GD Rai Singh (JC-723906K), 01 Oct 2008

Sub Maj Clk GD Bhagwat Saran Saraswat (JC-723968K), 01 Dec 2008

Sub Maj Clk GD Kamelesh Singh (JC-723969M), 01 Mar 2009

Sub Maj Clk S Prov Nikam Keshav Mokinda (JC-723895H), 16 Jun 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Maj Clk S Prov Pitambar Singh Tufan (JC-723781X), 23 Jun 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Maj Clk S Prov G Balakrishnan (JC-723941M), 10 Oct 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Maj Clk S Cont Sukh Ram Singh (JC-722746H), 03 May 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Maj Clk S Cont Lalji Pathak (JC-723783H), 21 Jul 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Maj SKT Engr Khurshed Ahmad (JC-723627Y), 10 Mar 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Maj SKT Engr Yogesh Kumar (JC-723717A), 01 Jun 2008

Sub Maj SKT Engr Vijay Kumar Sahijpal (JC-723797H), 01 Feb 2009

Sub Maj SKT MT Radheesa Babu C (JC-723647M), 05 Jan 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Maj SKT MT Lokendar Singh Chohan (JC-723869F), 01 Feb 2009

Sub Maj SKT MT Amarjit Singh (JC-723637H), 01 Jul 2008

Sub Maj SKT MT Asif Ali Khan (JC-723638L), 05 Aug 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Maj SKT WEP Kuldeep Singh (JC-723535M), 01 May 2008

Sub Maj SKT WEP Ashok Kumar (JC-723745M), 14 May 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Maj SKT AMN Pradeep Singh (JC-723542H), 01 Nov 2008

Sub Maj SKT AMN Munni Lal (JC-723662F), 01 Nov 2008

Sub Maj SKT AMN Budhiram Gogoi (JC-723650M), 01 Jan 2009

Sub Maj SKT AMN Panchoo Lal (JC-723872F), 31 Mar 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Maj SKT AMN Laxmi Datta Sharma (JC-723841F), 01 Apr 2009

Sub Maj SKT AMN Bhandar Kawthe Sidram (JC-724060A), 09 Sep 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Maj SKT GS&C Gopal Chandra Bala (JC-723726F), 01 Nov 2008

Sub Maj SKT GS&C Krishnan T (JC-723641L), 12 Dec 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Maj SKT SIG Tilak Raj (JC-723626W), 29 Dec 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Maj DVR MT Ramesh Singh (JC-725925N), 01 Sep 2008

Sub Maj SHT Musa Khan Pathan (JC-724946X), 01 Nov 2008

Sub Maj SHGD Govind Ram (JC-725986L), 04 May 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Maj SHGD Shaik Kasim Pera (JC-725945F), 05 May 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Maj SHGD Monohar Singh (JC-725989Y), 01 Sep 2008

Sub Maj SHGD Ranjit Singh (JC-726030F), 01 Oct 2008

Sub Maj SHGD Surat Singh (JC-725990N), 01 Sep 2008

### To be Substantive Subedar

Sub AT Vardha Rajan A (JC-725229W), 01 May 2008

Sub AT Bala Subramaniam C (JC-725288H), 01 May 2008

Sub AT Saragada Manga Babu (JC-725309N), 01 May 2008

Sub AT I Dharmalingam (JC-725254P), 21 May 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Sub AT Ravi M (JC-725289L), 01 Jul 2008

Sub AT Shiv Pujan Singh (JC-725310H), 01 Jul 2008

Sub AT Premlal Thakur (JC-725311L), 01 Jul 2008

Sub AT Shyam Lal Mali (JC-725314Y), 01 Jul 2008

Sub AT Shiv Ram Singh Khyalia (JC-725377F), 01 Jul 2008

Sub AT Sukesh Chandra Ranjit (JC-725313W), 13 Jul 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Sub AT Om Prakash Jajda (JC-725525F), 01 Aug 2008

Sub AT Durga Ram Sau (JC-725581A), 01 Aug 2008

Sub AT Nathu Lal (JC-725524Y), 22 Aug 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Sub AT Hemant Kumar Mishra (JC-725312N), 27 Aug 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Sub AT Shaik Shakil Dastageer (JC-725583L), 01 Sep 2008

Sub AT Suryawanshi S C (JC-725584N), 01 Sep 2008

Sub AT Satyaveer (JC-725676A), 01 Sep 2008

Sub AT Surender Singh (JC-725708X), 01 Sep 2008

Sub AT Krishan Lal (JC-725677H), 18 Sep 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Sub AT Madhukar Mehta (JC-725739X), 01 Oct 2008

Sub AT Wakil Poddar (JC-725950M), 01 Oct 2008

Sub AT Dharambir (JC-725699F), 25 Oct 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Sub AT Ajay Kumar Mandal (JC-725709A), 01 Nov 2008

Sub AT Vimal Thakure (JC-725710P), 01 Nov 2008

Sub AT Naga Rajan G R (JC-725308L), 01 Dec 2008\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Sub AT Govind Prasad (JC-725765Y), 01 Jan 2009

Sub AT Jadhav Sunil Vasant (JC-725780N), 01 Jan 2009

Sub AT Dayanidhi Behera (JC-725806X), 01 Jan 2009

Sub AT Hargovind Singh (JC-725953A), 01 Jan 2009

Sub AT Rama Chandra Panda (JC-725952X), 01 Feb 2009

Sub AT Bishnu Priyo Tripathy (JC-725781W), 01 Mar 2009

Sub AT D Basava Raj Narayan (JC-725809L), 01 Mar 2009

Sub AT Tarun Kumar Ghosh (JC-725951P), 01 Mar 2009

Sub AT Prem Narayan Singh (JC-726194X), 17 Mar 2009\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Sub AT Biman Kumar Biswas (JC-725954H), 18 Mar 2009\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Sub AT Laxmikanta Pradhan (JC-725741P), 19 Mar 2009\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Sub AT Jadhav Bhagwan Krishna (JC-725779Y), 20 Mar 2009\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Clk GD Yesh Pal Singh (JC-726007N), 12 Mar 2008\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Clk GD Pradeep Kumar P V (JC-726294H), 01 Oct 2008

Sub Clk GD Devinder Sharma (JC-726326A), 01 Oct 2008

Sub Clk GD Sukhbir Singh (JC-726327H), 01 Oct 2008

Sub Clk GD Ram Nandan Kumar (JC-726328L), 01 Oct 2008

Sub Clk GD Sashi Kumar Sharma (JC-726330H), 01 Nov 2008

Sub Clk GD Atma Singh (JC-726331L), 01 Nov 2008

Sub Clk GD Shamsheer Singh (JC-726332N), 01 Nov 2008

Sub Clk GD P K Nazhar (JC-726369P), 01 Nov 2008

Sub Clk GD Shatrughan Lal (JC-726372P), 01 Nov 2008

Sub Clk GD Mohammad Ghafir Khan (JC-726383F), 01 Nov 2008

Sub Clk GD Surendra Prasad Singh (JC-726329N), 10 Nov 2008\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Clk GD Mahesh Chandra Sharma (JC-726349F), 05 Dec 2008\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Clk GD Mallikarjun Basappa Lakkammanavar (JC-726602X), 01 Mar 2009

Sub Clk GD Vijay Pal Singh Dalal (JC-726646P), 01 Mar 2009

Sub Clk S Cont Moolraj Bhagat (JC-726077M), 01 May 2008

Sub Clk S Cont Ashok Kumar (JC-726079X), 01 May 2008

Sub Clk S Cont Rachhpal Singh (JC-726080M), 01 May 2008

Sub Clk S Cont Prem Chand Vishodia (JC-726101X), 01 May 2008

Sub Clk S Cont Ompal Singh (JC-726115X), 01 May 2008

Sub Clk S Cont Ram Briksha Singh (JC-726120H), 01 May 2008

Sub Clk S Cont Hiralal Yadav (JC-726127M), 01 May 2008

Sub Clk S Cont Anil Kumar Saxena (JC-726186Y), 04 May 2008\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Clk S Cont Lankush Lal (JC-726129X), 19 May 2008\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Clk S Cont Ravi Lal (JC-726065X), 29 May 2008\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Clk S Cont Prem Prakash (JC-726082X), 29 May 2008\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Clk S Cont Girdhari Singh (JC-726130M), 01 Jun 2008

Sub Clk S Cont Jaswant Singh (JC-726131P), 01 Jun 2008

Sub Clk S Cont Gopal Singh Shekhawat (JC-726163X), 01 Jun 2008

Sub Clk S Cont Ramesh Chand (JC-726164A), 01 Jun 2008

Sub Clk S Cont Surinder Singh (JC-726166L), 01 Jun 2008

Sub Clk S Cont Daljit Singh (JC-726167N), 01 Jun 2008

Sub Clk S Cont Mahesh Prasad Sah (JC-726168W), 01 Jun 2008

Sub Clk S Cont Paramjit Singh (JC-726170N), 01 Jun 2008

Sub Clk S Cont Ragubir Singh (JC-726171W), 01 Jun 2008

Sub Clk S Cont Mohan Lal (JC-726172Y), 01 Jun 2008

Sub Clk S Cont Rajendra Singh (JC-726173F), 01 Jun 2008

Sub Clk S Cont Karam Singh (JC-726175M), 01 Jun 2008

Sub Clk S Cont Ram Narayan Singh (JC-726177X), 01 Jun 2008

Sub Clk S Cont Khushi Ram (JC-726189M), 01 Jun 2008

Sub Clk S Cont Birender Singh (JC-726195A), 01 Jun 2008

Sub Clk S Cont Girish Chandra Tripathi (JC-726196H), 01 Jun 2008

Sub Clk S Cont Gunaee Yadava (JC-726216L), 01 Jun 2008

Sub Clk S Cont Sukhdev Singh Sandhu (JC-726083A), 02 Jun 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Clk S Cont Shrikant Hongal (JC-726201H), 01 Jul 2008

Sub Clk S Cont Ramdhani Yadav (JC-726202L), 01 Jul 2008

Sub Clk S Cont Somashekhar Dhanashetti (JC-726213X), 01 Jul 2008

Sub Clk S Cont Rajendran Pillai (JC-725544M), 05 Jul 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Clk S Cont Bhupal Singh (JC-726176P), 16 Jul 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Clk S Cont Sadanandan P K (JC-726174K), 17 Jul 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Clk S Cont Chand Bukhari Maruf (JC-726197L), 18 Jul 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Clk S Cont Riyasat Ali (JC-726200A), 21 Jul 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Clk S Cont Rajendra Prasad Singh (JC-726203N), 01 Aug 2008

Sub Clk S Cont Shekh Mohamad Aslam (JC-726218W), 01 Aug 2008

Sub Clk S Cont Ajay Kumar Pandey (JC-726229H), 01 Aug 2008

Sub Clk S Cont Ravindra Kumar (JC-726230X), 01 Aug 2008

Sub Clk S Cont Vable Chandrakant Babu Rao (JC-726248N), 01 Aug 2008

Sub Clk S Cont Ghanshyam Vidyarthi (JC-726249W), 01 Aug 2008

Sub Clk S Cont Khima Nand Pancholi (JC-726250L), 01 Aug 2008

Sub Clk S Cont Shri Krishan Singh (JC-726251N), 01 Aug 2008

Sub Clk S Cont Manoranjan Biswas (JC-726252W), 01 Aug 2008

Sub Clk S Cont Ramdhani Yadav (JC-726253Y), 01 Aug 2008

Sub Clk S Cont Ram Kumar (JC-726798W), 01 Aug 2008

Sub Clk S Cont Shiv Bahadur (JC-726231A), 01 Sep 2008

Sub Clk S Cont Basdeo Yadav (JC-726232H), 01 Sep 2008

Sub Clk S Cont Biju Nair (JC-726233L), 01 Sep 2008

Sub Clk S Cont Pradipta Kishore Mishra (JC-726234N), 01 Sep 2008

Sub Clk S Cont Ashok Kumar Singh (JC-726254F), 01 Sep 2008

Sub Clk S Cont Pradeep Singh (JC-726255K), 01 Sep 2008

Sub Clk S Cont Achutananda Satapathy (JC-726256M), 01 Sep 2008

Sub Clk S Cont Bhima Nand (JC-726257P), 01 Sep 2008

Sub Clk S Cont Suresh Kumar (JC-726258X), 01 Sep 2008

Sub Clk S Cont Omkar Nath (JC-726259A), 01 Sep 2008

Sub Clk S Cont Uttam Kumar Sinha (JC-726317Y), 01 Sep 2008

Sub Clk S Cont Ashok Kumar Singh (JC-726235W), 01 Oct 2008

Sub Clk S Cont Diwakar Pandey (JC-726260P), 01 Oct 2008

Sub Clk S Cont S Mohammed Attaulah (JC-726261X), 01 Oct 2008



- Sub Clk S Cont Santosh Pal (JC-726262A), 01 Oct 2008
- Sub Clk S Cont Bishnu Mahto (JC-726263H), 01 Oct 2008
- Sub Clk S Cont Umamaheswara Rao L (JC-726279N), 01 Oct 2008
- Sub Clk S Cont Hari Chand Shakya (JC-726280H), 01 Oct 2008
- Sub Clk S Cont Narinder Singh (JC-726281L), 01 Oct 2008
- Sub Clk S Cont Ramesh Babu K P (JC-726282N), 01 Oct 2008
- Sub Clk S Cont Ran Vir Singh (JC-726283W), 01 Oct 2008
- Sub Clk S Cont Bharat Singh Rathore (JC-726284Y), 01 Oct 2008
- Sub Clk S Cont Jagdish Chand (JC-726285F), 01 Oct 2008
- Sub Clk S Cont Ramhotar (JC-726288P), 01 Oct 2008
- Sub Clk S Cont Omvir Singh Yadav (JC-726291P), 01 Oct 2008
- Sub Clk S Cont Shyam Vir (JC-726292X), 01 Oct 2008
- Sub Clk S Cont Koka Madhava Naidu (JC-726293A), 01 Oct 2008
- Sub Clk S Cont Rajvir Prasad Mishra (JC-726346N), 01 Oct 2008
- Sub Clk S Cont Ajit Singh (JC-726347W), 01 Oct 2008
- Sub Clk S Cont Ram Gopal (JC-726348Y), 01 Oct 2008
- Sub Clk S Cont Chandi Prasad (JC-726393L), 01 Oct 2008
- Sub Clk S Cont Shishu Pal Singh (JC-726286K), 07 Oct 2008\*
- \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub Clk S Cont Kamal Singh (JC-726287M), 08 Oct 2008\*
- \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub Clk S Cont MD Haider Ali Ansari (JC-726324P), 21 Oct 2008\*
- \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub Clk S Cont Ajoy Nandi (JC-726322K), 27 Oct 2008\*
- \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub Clk S Cont Umesh Kumar Singh (JC-726371M), 01 Nov 2008
- Sub Clk S Cont Vidyadhar Pande (JC-726373X), 01 Nov 2008
- Sub Clk S Cont Chandra Pal (JC-726374A), 01 Nov 2008
- Sub Clk S Cont Satya Narayan Yadav (JC-726384K), 01 Nov 2008
- Sub Clk S Cont Ram Pukar Ray (JC-726385M), 01 Nov 2008
- Sub Clk S Cont Kambale Prakash Shivram (JC-726399M), 01 Nov 2008
- Sub Clk S Cont Antaryami Mahapatra (JC-726400W), 01 Nov 2008
- Sub Clk S Cont Kashab Chandra Baral (JC-726410A), 01 Nov 2008
- Sub Clk S Cont Anil Kumar (JC-726412L), 01 Dec 2008
- Sub Clk S Cont Ram Singh Saini (JC-726414W), 01 Dec 2008
- Sub Clk S Cont Akolkar Uttam Gangadhar Rao (JC-726415Y), 01 Dec 2008
- Sub Clk S Cont Om Prakash (JC-726417K), 01 Dec 2008
- Sub Clk S Cont Naginder Singh (JC-726446Y), 01 Dec 2008
- Sub Clk S Cont Sarwan Singh (JC-726447F), 01 Dec 2008
- Sub Clk S Cont Jagdish Chander (JC-726464F), 01 Dec 2008
- Sub Clk S Cont Jagrup Singh (JC-726472A), 01 Dec 2008
- Sub Clk S Cont Kuldeep Singh (JC-726473H), 01 Dec 2008
- Sub Clk S Cont Ummaid Singh Inda (JC-726474L), 01 Dec 2008
- Sub Clk S Cont Mohanan R (JC-726475N), 01 Dec 2008
- Sub Clk S Cont Abhay Kumar (JC-726490H), 01 Dec 2008
- Sub Clk S Cont Maharban Khan Pathan (JC-726491L), 01 Dec 2008
- Sub Clk S Cont Gulab Singh (JC-726492N), 01 Dec 2008
- Sub Clk S Cont Shiv Dan Singh (JC-726493W), 01 Dec 2008
- Sub Clk S Cont Subash Singh (JC-726495F), 01 Dec 2008
- Sub Clk S Cont Satyaveer Singh (JC-726510L), 01 Dec 2008
- Sub Clk S Cont Virendra Singh (JC-726416F), 15 Dec 2008\*
- \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub Clk S Cont Gobind Singh Yadawa (JC-726462W), 25 Dec 2008\*
- \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub Clk S Cont Ram Niwas (JC-726479K), 01 Jan 2009

- Sub Clk S Cont Khajan Singh (JC-726480Y), 01 Jan 2009
- Sub Clk S Cont Baldhari Singh Sengar (JC-726481F), 01 Jan 2009
- Sub Clk S Cont Surendra Nath Das (JC-726496K), 01 Jan 2009
- Sub Clk S Cont Arun Kumar Tiwari (JC-726514F), 01 Jan 2009
- Sub Clk S Cont Baljinder Singh (JC-726524L), 01 Jan 2009
- Sub Clk S Cont Husen Ahmed Laskar (JC-726525N), 01 Jan 2009
- Sub Clk S Cont Joydev Shankhari (JC-726560W), 01 Jan 2009
- Sub Clk S Cont Prakash Chandra Singh (JC-726561Y), 01 Jan 2009
- Sub Clk S Cont Abid Sohail (JC-726562F), 01 Jan 2009
- Sub Clk S Cont Ganesh Chandra Das (JC-726563K), 01 Jan 2009
- Sub Clk S Cont Nasiruddin (JC-726418M), 05 Jan 2009\*
- \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub Clk S Cont Ranjit Kumar Swain (JC-726497M), 05 Jan 2009\*
- \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)
- Sub Clk S Cont Ram Niwas Ram (JC-726564M), 05 Jan 2009\*
- \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)
- Sub Clk S Cont Sachchidanand Prasad (JC-726559F), 09 Jan 2009\*
- \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)
- Sub Clk S Cont Jagmal Singh (JC-726494Y), 14 Jan 2009\*
- \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub Clk S Cont Trish Pal (JC-726541L), 01 Feb 2009
- Sub Clk S Cont Hakim Singh (JC-726542N), 01 Feb 2009
- Sub Clk S Cont Ramankant Singh (JC-726543W), 01 Feb 2009
- Sub Clk S Cont Mohinder Singh (JC-726544Y), 01 Feb 2009
- Sub Clk S Cont Ram Roop Yadav (JC-726586L), 01 Feb 2009
- Sub Clk S Cont Bhishmapal Singh (JC-726597X), 01 Feb 2009
- Sub Clk S Cont Gurnaib Singh (JC-726600M), 01 Feb 2009
- Sub Clk S Cont Hardev Gangwar (JC-726623N), 01 Feb 2009
- Sub Clk S Cont Sukhwinder Singh (JC-726601P), 01 Mar 2009
- Sub Clk S Cont Dharamvir Singh (JC-726603A), 01 Mar 2009
- Sub Clk S Cont Gavani Kempna Babu (JC-726604H), 01 Mar 2009
- Sub Clk S Cont Patil Narayan Shankar (JC-726624W), 01 Mar 2009
- Sub Clk S Cont Balbir Singh Sekhawat (JC-726626F), 01 Mar 2009
- Sub Clk S Cont Surendra Prasad Singh (JC-726670L), 01 Mar 2009
- Sub Clk S Cont Shyamsunder Singh (JC-726540H), 19 Mar 2009\*
- \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)
- Sub Clk S Cont Dipak Kumar Mandal (JC-726565P), 20 Mar 2009\*
- \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)
- Sub Clk S Cont Satyavir Singh (JC-726636L), 01 Apr 2009
- Sub Clk S Cont Naik Suresh Bhai Babu Bhai (JC-726637N), 01 Apr 2009
- Sub Clk S Cont Ramananda Biswas (JC-726639Y), 01 Apr 2009
- Sub Clk S Cont Brajesh Bahadur Singh (JC-726650X), 01 Apr 2009
- Sub Clk S Cont Chandeshwar Mishra (JC-726666H), 01 Apr 2009
- Sub Clk S Cont Ram Babu (JC-726679A), 01 Apr 2009
- Sub Clk S Prov Radha Krishnan (JC-726622L), 24 Mar 2009\*
- \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)
- Sub SKT AMN Bilendra Kumar Yadav (JC-725685F), 01 May 2008
- Sub SKT AMN Sanjay Kumar (JC-725826L), 01 May 2008
- Sub SKT AMN Ram Preeti (JC-725722K), 12 May 2008\*
- \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Sub SKT AMN Som Pal (JC-725662A), 16 May 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Sub SKT AMN Hanuman Ram (JC-725725X), 01 Jul 2008

Sub SKT AMN Ashok Kumar (JC-725755P), 01 Jul 2008

Sub SKT AMN Om Prakash Godara (JC-725754M), 10 Jul 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Sub SKT AMN Desh Raj Yadav (JC-725793L), 06 Aug 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Sub SKT AMN Dhantham Malakond Rayudu (JC-725690M), 16 Aug 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Sub SKT AMN Brij Mohan (JC-725858N), 01 Nov 2008

Sub SKT AMN Abhey Singh (JC-726094M), 01 Mar 2009

Sub SKT AMN Birbal Ram Jat (JC-726118L), 01 Mar 2009

Sub SKT AMN Virendra Singh (JC-726047P), 30 Mar 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT AMN Rai Singh Basera (JC-726140W), 01 Apr 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT AMN Ramprit (JC-726226P), 01 Apr 2009

Sub SKT AMN Pradip Kumar (JC-726296N), 01 Apr 2009

Sub SKT AMN Bahadur Singh (JC-726157K), 05 Apr 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT AVN Sukumar Chandra Biswas (JC-726191K), 12 Apr 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT Engr Ganesha Ram (JC-725724P), 02 Jun 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Sub SKT Engr Babu Singh (JC-725773X), 01 Sep 2008

Sub SKT Engr Udaya Singh (JC-725774A), 01 Sep 2008

Sub SKT Engr Jagdish Chander (JC-725800W), 01 Oct 2008

Sub SKT Engr Lakhan Singh (JC-726036H), 01 Oct 2008

Sub SKT Engr Kamal Kishor Sharma (JC-725865K), 01 Jan 2009

Sub SKT Engr Kutty Krishnan Parakkal (JC-725867P), 01 Jan 2009

Sub SKT Engr Surender Singh Negi (JC-725871X), 01 Jan 2009

Sub SKT Engr Satish Kumar (JC-726090W), 01 Mar 2009

Sub SKT Engr Mohan Singh Sawant (JC-726016P), 30 Mar 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT Engr Basant Kumar Singh (JC-726091Y), 31 Mar 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT GS&C Shyamal Routh (JC-725345Y), 01 Mar 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2008 without effect on pay and allowances)

Sub SKT GS&C Pemaram Jat (JC-725687M), 01 May 2008

Sub SKT GS&C Ramadhar Singh Rajput (JC-725775H), 01 Sep 2008

Sub SKT GS&C Ram Gopal Singh (JC-725795W), 01 Sep 2008

Sub SKT GS&C Debendra Kumar Rout (JC-725801Y), 01 Oct 2008

Sub SKT GS&C Laxmidhar Pradhan (JC-725831W), 01 Nov 2008

Sub SKT GS&C Saroj Kumar Rout (JC-725832Y), 01 Nov 2008

Sub SKT GS&C Ramesh Chandra Singh (JC-725859W), 01 Nov 2008

Sub SKT GS&C Prasanta Kumar Tupakula (JC-725835M), 01 Dec 2008

Sub SKT GS&C Gaya Singh (JC-725836P), 01 Dec 2008

Sub SKT GS&C Vijayan M P (JC-725837X), 01 Dec 2008

Sub SKT GS&C Kishan Chandra Sharma (JC-725863Y), 01 Dec 2008

Sub SKT GS&C Daya Ram (JC-725866M), 01 Jan 2009

Sub SKT GS&C Amar Singh (JC-725868X), 01 Jan 2009

Sub SKT GS&C Jagadale Sunil Sopan (JC-725870P), 01 Jan 2009

- Sub SKT GS&C Sultan Singh (JC-725910L), 01 Feb 2009
- Sub SKT GS&C Tejber Singh Rawat (JC-725964M), 01 Feb 2009
- Sub SKT GS&C Hari Om (JC-726158M), 01 Apr 2009
- Sub SKT GS&C Surendra Pal Singh (JC-726236Y), 01 Apr 2009
- Sub SKT GS&C Rameshwar Dass (JC-726265N), 01 Apr 2009
- Sub SKT GS&C Hukkam Singh Bisht (JC-726208M), 08 Apr 2009\*
- \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)
- Sub SKT MT Bal Krishna Pal (JC-725488Y), 17 Feb 2008\*
- \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub SKT MT Ram Sewak Pal (JC-725653Y), 14 Apr 2008\*
- \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub SKT MT Surendra Kumar (JC-725686K), 15 May 2008\*
- \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub SKT MT Gopal Singh Rathore (JC-725689X), 01 Jun 2008
- Sub SKT MT Narendra Singh Rawat (JC-725729N), 01 Jul 2008
- Sub SKT MT Parbat Singh Sisodia (JC-725756X), 01 Jul 2008
- Sub SKT MT Man Singh (JC-725772P), 01 Jul 2008
- Sub SKT MT Ambalal Jungid (JC-725792H), 01 Jul 2008
- Sub SKT MT Gopi Ram (JC-725688P), 03 Jul 2008\*
- \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub SKT MT Laxman Ram Kukana (JC-725703Y), 18 Jul 2008\*
- \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub SKT MT Likhama Ram Choudhar (JC-725727H), 04 Aug 2008\*
- \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub SKT MT Dharam Pal (JC-725791A), 08 Aug 2008\*
- \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub SKT MT Hamir Singh Solanki (JC-725704F), 22 Aug 2008\*
- \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub SKT MT Ravindra Singh Tomar (JC-725794N), 22 Aug 2008\*
- \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub SKT MT Subhash Singh (JC-725726A), 28 Aug 2008\*
- \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub SKT MT Chhail Singh (JC-725728L), 28 Aug 2008\*
- \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub SKT MT Jal Singh (JC-725829Y), 29 Aug 2008\*
- \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub SKT MT Mohar Singh (JC-725757A), 16 Sep 2008\*
- \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub SKT MT Jai Singh Yadav (JC-725797F), 01 Oct 2008
- Sub SKT MT Suresh Chandra Pal (JC-725864F), 05 Jan 2009\*
- \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)
- Sub SKT MT Krishna Bahadur Singh (JC-725909W), 01 Feb 2009
- Sub SKT MT Hukam Singh (JC-726046M), 01 Feb 2009
- Sub SKT MT Kamal Kanta Samal (JC-726015M), 01 Mar 2009
- Sub SKT MT Ramesh Chandra Sahoo (JC-726058F), 01 Mar 2009
- Sub SKT MT Rajan TP (JC-726088Y), 01 Mar 2009
- Sub SKT MT Dayanand Bhardwaj (JC-726133A), 01 Mar 2009
- Sub SKT MT Navin Chandra Mathpal (JC-726156F), 01 Mar 2009
- Sub SKT MT Hajari Lal Bhagahsra (JC-726093K), 27 Mar 2009\*
- \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)
- Sub SKT MT Ramesh Kumar (JC-725900F), 28 Mar 2009\*
- \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT MT Subhash Baboo Dixit (JC-726049A), 30 Mar 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT MT Anand Singh (JC-726052A), 30 Mar 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT MT Kishore Chandra Raju (JC-726089F), 31 Mar 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT MT M Joseph Nicholas (JC-726207K), 01 Apr 2009

Sub SKT MT Mahendra Singh (JC-726211M), 01 Apr 2009

Sub SKT MT Mahipat Singh (JC-726225M), 01 Apr 2009

Sub SKT SIG Dharamvir (JC-725612P), 01 May 2008

Sub SKT SIG Chavan Sunil Abasaheb (JC-725654F), 12 May 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Sub SKT SIG Sugriv Singh (JC-725803K), 01 Oct 2008

Sub SKT SIG Devendrapal Singh (JC-725828W), 01 Oct 2008

Sub SKT SIG Prakash Narayan (JC-725857L), 01 Nov 2008

Sub SKT SIG Kanhaya Singh (JC-725901K), 01 Nov 2008

Sub SKT SIG Manasaram Ghosh (JC-725884P), 05 Nov 2008\*

Sub SKT SIG Suresh Kumar (JC-725830N), 12 Nov 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Sub SKT SIG Jayant Kumar Mishra (JC-725873H), 01 Feb 2009

Sub SKT SIG Chadammi Lal (JC-725963K), 01 Feb 2009

Sub SKT SIG Rajendra Singh (JC-726051X), 01 Mar 2009

Sub SKT SIG Rabinder Kumar Panda (JC-726227X), 01 Apr 2009

Sub SKT SIG Shrikant Pandey (JC-726334Y), 01 Apr 2009

Sub SKT SIG Om Prakash (JC-725948P), 11 Apr 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Sub SKT Wep Rajendra Prasad (JC-725796Y), 01 Oct 2008

Sub SKT Wep BBR Shiva Gondappa (JC-725834K), 01 Dec 2008

Sub SKT Wep Prakash (JC-725838A), 01 Dec 2008

Sub SKT Wep Krutibasa Parida (JC-725861N), 01 Dec 2008

Sub SKT Wep Phool Singh (JC-725869A), 01 Jan 2009

Sub SKT Wep Surendra Yadav (JC-725883M), 01 Jan 2009

Sub SKT Wep Ajit Kumar Dash (JC-725872A), 01 Feb 2009

Sub SKT Wep Udayavir Singh Malik (JC-725904X), 01 Feb 2009

Sub SKT Wep Sanjay Kumar Parida (JC-726010N), 01 Feb 2009

Sub SKT Wep Mohmmad Ohiya (JC-726048X), 01 Feb 2009

Sub SKT Wep Rajvir Singh (JC-726192M), 01 Apr 2009

Sub SKT Wep Brahmananda Pradhan (JC-726224K), 01 Apr 2009

Sub SKT Wep Ramraj Pal (JC-725885X), 02 Apr 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Dvr MT Md Muslim Khan (JC-726794A), 01 May 2008

Sub Dvr MT Ganesh Prasad Mishra (JC-726845H), 01 May 2008

Sub Dvr MT Padmanabhan Moothedath (JC-726864N), 01 May 2008

Sub Dvr MT Surendra Singh (JC-726788M), 12 May 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Dvr MT Abhiram Sethi (JC-726809X), 25 May 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Dvr MT Mani Lal Rai (JC-726882W), 01 Jun 2008

Sub Dvr MT Ram Niwas (JC-726963W), 01 Aug 2008

Sub Dvr MT Sadashiv Krishna Hatekar (JC-727020K), 01 Aug 2008

Sub Dvr MT Hadi Ram Mohanta (JC-727019P), 01 Sep 2008

Sub Dvr MT Prabasi Samal (JC-727021M), 01 Sep 2008

Sub Dvr MT Sheo Dayal Prasad (JC-727022P), 01 Oct 2008

Sub Dvr MT Yogendra Singh (JC-727148P), 01 Oct 2008

Sub Dvr MT Shiw Ratan Singh (JC-727212F), 01 Oct 2008

Sub Dvr MT Kundan Singh (JC-727214M), 01 Oct 2008  
 Sub Dvr MT Bivash Mondal (JC-727215P), 01 Oct 2008  
 Sub Dvr MT Joy KM (JC-727219L), 01 Oct 2008  
 Sub Dvr MT Enamul Kabir Biswas (JC-727147M),  
 01 Nov 2008  
 Sub Dvr MT Chander Deorai (JC-727217A), 01 Nov 2008  
 Sub Dvr MT Bhakta Bahadur Chhettri (JC-727218H),  
 01 Dec 2008  
 Sub Dvr SPL Ramesh Mishra (JC-726910X), 01 Jun 2008  
 Sub Dvr SPL Tej Bahadur Singh (JC-726907X), 01 Aug  
 2008  
 Sub Dvr SPL Pradip Kumar Doloi (JC-727018M),  
 01 Oct 2008  
 Sub Dvr SPL Mahipal Singh (JC-727216X), 01 Nov 2008  
 Sub SHT Ram Naresh Shakya (JC-726729A), 22 Mar  
 2008\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2008  
 without effect on pay and allowances)  
 Sub SHT Ramachander Ray (JC-726696A), 01 May 2008  
 Sub SHT Chandrma Kushwaha (JC-726795H), 01 Jul 2008  
 Sub SHT Paras Nath Singh Yadav (JC-726916Y), 01 Jul  
 2008  
 Sub SHT Vinod Kumar Yadav (JC-726964Y), 01 Aug 2008  
 Sub SHT Baikuntha Nath Sahoo (JC-726909H), 01 Sep  
 2008  
 Sub SHT Gopinathan Pillai V (JC-726945N), 01 Sep 2008  
 Sub SHT Hrudananda Mallik (JC-726946W), 01 Sep 2008  
 Sub SHT Shripal Singh (JC-727080Y), 01 Nov 2008  
 Sub SHT Maipak Singha (JC-727208Y), 01 Nov 2008  
 Sub SHT Arjun Kumar (JC-727202X), 01 Dec 2008  
 Sub SHT Raghubir Singh (JC-727038A), 01 Jan 2009  
 Sub SHGD Til Bahadur Chhetri Sarki (JC-727028W),  
 01 May 2008\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2008  
 without effect on pay and allowances)  
 Sub SHGD Umesh (JC-727083M), 01 May 2008  
 Sub SHGD Joseph Devasia (JC-727029Y), 05 May 2008\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2008  
 without effect on pay and allowances)  
 Sub SHGD Laxman Singh (JC-727138L), 09 May 2008\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2008  
 without effect on pay and allowances)

Sub SHGD Rajeshwar Thakur (JC-727132K), 01 Jun 2008  
 Sub SHGD Gulab Singh (JC-727136A), 01 Jun 2008\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2008  
 without effect on pay and allowances)  
 Sub SHGD Ganesh Chandra Nath (JC-727203A), 01 Jun  
 2008  
 Sub SHGD Shivdas Dhondu Chaudhari (JC-727207W),  
 01 Jun 2008\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2008  
 without effect on pay and allowances)  
 Sub SHGD Dukku Mali Subba Rao (JC-727211Y), 18 Jun  
 2008\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2008  
 without effect on pay and allowances)  
 Sub SHGD Jayaraj S (JC-727139N), 21 Jun 2008\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2008  
 without effect on pay and allowances)  
 Sub SHGD Dharam Gujar (JC-727145F), 25 Jun 2008\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2008  
 without effect on pay and allowances)  
 Sub SHGD Gopal Chandra Ghising (JC-727135X), 28 Jun  
 2008\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2008  
 without effect on pay and allowances)  
 Sub SHGD Puran Lal (JC-726724F), 01 Jul 2008  
 Sub SHGD Chandar Shekhar (JC-727133M), 01 Aug 2008  
 Sub SHGD Shitala Sharan (JC-727134P), 01 Aug 2008  
 Sub SHGD Pawar Dinkar Murlidhar (JC-727204), 01 Aug  
 2008  
 Sub SHGD Keshav Prasad (JC-727258K), 01 Aug 2008  
 Sub SHGD Jaig Nath (JC-727205L), 25 Aug 2008\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2008  
 without effect on pay and allowances)  
 Sub SHGD Maheswar Pradhan (JC-727206N), 01 Sep  
 2008\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2008  
 without effect on pay and allowances)  
 Sub SHGD Suresh Kumar (JC-727243F), 01 Sep 2008  
 Sub SHGD Bijender Singh (JC-727265A), 01 Sep 2008  
 Sub SHGD Indra Jit Mandal (JC-727266H), 01 Sep 2008  
 Sub SHGD Janardan Namdeo Lavate (JC-727283H),  
 01 Sep 2008  
 Sub SHGD Chandeshwar Prasad (JC-727284L), 01 Sep  
 2008

Sub SHGD Ramesh Chandra Swain (JC-727285N), 01 Sep 2008

Sub SHGD Kashi Nath Behera (JC-727286W), 01 Sep 2008

Sub SHGD Hari Narayan Jat (JC-727322W), 01 Sep 2008

Sub SHGD Shyam Singh (JC-727323Y), 01 Sep 2008

Sub SHGD Adya Nath Pradhan (JC-727324F), 01 Sep 2008

Sub SHGD Babulal Lakra (JC-727325K), 01 Sep 2008

Sub SHGD Ugra Sen Bhutia (JC-727326M), 01 Sep 2008

Sub SHGD Mukesh Chand (JC-727259M), 11 Sep 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Sub SHGD Bhuwan Chandra Joshi (JC-727333H), 01 Oct 2008

Sub SHGD Hanumant Parsram Patil (JC-727373K), 01 Oct 2008

Sub SHGD Nityananda Haldar (JC-727374M), 01 Oct 2008

Sub SHGD Krishna Pada Das (JC-727411P), 01 Oct 2008

Sub SHGD Brinda Lal Sharma (JC-727281X), 01 Jan 2009

Sub SHGD Subash Chandra Pradhan (JC-727343M), 01 Jan 2009

Sub SHGD Ram Kumar Singh (JC-727353W), 01 Jan 2009

Sub Carp (U) Rajender Singh Dewpa (JC-726378W), 01 Mar 2009

Sub M/Smith Ram Paul (JC-726184N), 14 Sep 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Sub PTR (U) Vijai Bahadur Singh (JC-726054L), 01 May 2008

Sub PTR (U) Md Abdul Rahman (JC-726785Y), 01 Jul 2008

Sub PTR (U) Havaladar Singh (JC-727140H), 01 Jul 2008

Sub OLP Govind Singh (JC-727142N), 01 Jun 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances)

#### CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR BRANCH

The President is pleased to make the following Appointments/Promotions :—

##### To be Sub ARMR

Nb Sub Yadav Sajjan Singh P Singh (JC-760204H), 11 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Shiv Muni Ram (JC-760201P), 01 Apr 2009

Nb Sub Kader Nath Nayak (JC-760200M), 15 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Arjun Prasad (JC-760199H), 11 Apr 2009/01 Apr 2009\*

##### To be Sub ARTZN (EC)

Nb Sub PVSR Krishna Prasad (JC-758617N), 17 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Adwityakar Das (JC-760947L), 11 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Ravindra Kumar Rai (JC-761219X), 01 Apr 2009

Nb Sub Jaipal Singh (JC-761142A), 11 Apr 2009/01 Apr 2009\*

##### To be Sub ARTZN (NE)

Nb Sub Kotwal (JC-759488L), 13 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Sivaprasad Rava (JC-759405P), 15 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Ashok Kumar Singh (JC-759269K), 01 Apr 2009

##### To be Sub Clk (GD)

Nb Sub Bala Krishnan E (JC-757029N), 01 Apr 2009

Nb Sub Dev Nath Singh (JC-756849N), 01 Apr 2009

Nb Sub Hukam Singh (JC-757034Y), 01 Apr 2009

Nb Sub Muni Lal Singh (JC-756268W), 09 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Ved Prakash (JC-756267N), 06 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Hakim Singh (JC-757031L), 01 Apr 2009

Nb Sub C Rajan (JC-757032N), 01 Apr 2009

Nb Sub Jagbir Singh Malik (JC-757033W), 01 Apr 2009

Nb Sub Vijay Kumar Yadav (JC-756848L), 01 Apr 2009

Nb Sub Bhanu Pratap Singh (JC-756689Y), 01 Apr 2009

Nb Sub Rohitash Kumar (JC-756694K), 01 Apr 2009

Nb Sub M D Aslam Khan (JC-756846A), 01 Apr 2009

Nb Sub Bikash Das (JC-756266L), 01 Apr 2009

Nb Sub Satish Chander (JC-756269Y), 01 Apr 2009

Nb Sub Ram Pyare Tiwari (JC-756847H), 01 Apr 2009

Nb Sub Phool Singh Nayak (JC-758620N), 06 Apr 2009/01 Apr 2009\*

##### To be Sub DW

Nb Sub Bansidhar (JC-761148F), 30 Mar 2009/01 Feb 2009\*

Nb Sub Mohinder Singh (JC-761021Y), 29 Mar 2009/03 Dec 2008\*

## To be Sub SKT

Nb Sub Sanjeev Kumar Pathak (JC-757332P), 18 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Raj Kumar Dhiman (JC-757344K), 01 Apr 2009

Nb Sub Chander Prakash (JC-757561A), 13 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Vijay Kumar (JC-757971W), 01 Apr 2009

Nb Sub Jagdish Yadav (JC-757972Y), 09 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Subhash Chand (JC-757166M), 17 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Bal Raj Singh (JC-757324W), 01 Apr 2009

Nb Sub Ram Chander Singh (JC-757562H), 15 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Shankar Patil (JC-757330K), 10 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Mayadhar Naik (JC-757042X), 13 Apr 2009/01 Mar 2009\*

Nb Sub Harbir Singh (JC-757044H), 01 Apr 2009

Nb Sub Ajit Pratap Singh (JC-758140K), 06 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Kranti Kumar (JC-757202M), 12 Apr 2009/01 Mar 2009\*

Nb Sub Pratap Narain (JC-758059X), 01 Apr 2009

Nb Sub Surendran PR (JC-757329P), 11 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Dinesh Yadava (JC-757327K), 02 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Patil Lahu Mahadeo (JC-756961A), 26 Mar 2009/01 Mar 2009\*

Nb Sub Shamsher Singh (JC-757348A), 01 Apr 2009

Nb Sub Kishori Lal (JC-757201K), 25 Mar 2009/01 Mar 2009\*

Nb Sub Sallam Khan (JC-756915L), 08 Apr 2009/01 Mar 2009\*

## To be Sub Tech

Nb Sub Suresh Chauhan (JC-758684Y), 15 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Ranjit Kumar Das (JC-758530M), 01 May 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Navendu Kumar Acharya (JC-758508F), 01 Apr 2009

Nb Sub Bajrang Singh (JC-758587F), 20 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Ram Autar (JC-758540W), 08 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Mahesh Singh (JC-758465X), 01 Apr 2009

Nb Sub Surinder Kumar (JC-758460Y), 01 Apr 2009

Nb Sub Kanhaiya Ram (JC-758529X), 01 Apr 2009

Nb Sub Bharat Lal Rai (JC-758469N), 14 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Rajesh Kumar Pandey (JC-758618W), 01 Apr 2009

Nb Sub Vindu Kumar (JC-758509K), 11 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Subhasis Ghatak (JC-758541Y), 01 Apr 2009

Nb Sub Rajesh Kumar Bhakuri (JC-758994K), 20 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Vijay Bahadur (JC-758347K), 01 Mar 2009

Nb Sub Saroj Kumar Sahoo (JC-758538Y), 01 Apr 2009

Nb Sub Rajinder Singh (JC-758526K), 01 Apr 2009

Nb Sub Anjan Kumar Nayak (JC-758464P), 11 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Babu MS (JC-758847F), 11 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Sukanta Kumar Mishra (JC-758466A), 06 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Manoharan V (JC-758627X), 01 Apr 2009

Nb Sub Sudhir Kumar (JC-758688P), 13 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Sri Subhash Singh (JC-758536N), 08 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Bipin Bihari Kabi (JC-758791A), 01 Apr 2009

Nb Sub Mrinal Kanti Pati (JC-758462K), 20 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Vijay Singh Chahar (JC-758687M), 15 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Sukkhoo Lal (JC-758468L), 18 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Bhaskar Dutt (JC-758461F), 01 Apr 2009

Nb Sub Tapan Kumar Paul (JC-758790X), 01 Apr 2009

\*(Gtd ante dated seniority)

N K KASHMIRA  
Under Secy

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT  
ORGANISATION

No. 113, dated 17th February 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

The undermentioned Scientists' 'B' to be temporary Scientist(s) 'C' in the Defence Research & Development



Service with effect from the dates shown against their names in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- (Pay Band-3) + Rs. 6,600/- (Grade Pay) :—

Name, Estt. & Date	
Adarshvir Singh, ADRDE, Agra, 01 Jul 2009	Mrinal Kumar Das, DLJ, Jodhpur, 01 Jul 2009
Gurdeep Singh, ADRDE, Agra, 01 Jul 2009	Ashok Naglot, DRL, Tezpur (Assam), 01 Jul 2009
Ashutosh Kumar, ADRDE, Agra, 01 Jul 2009	Shital Kumar Garg, INS Shivaji, 01 Jul 2009
Manohar Singh Jagat, ADRDE, Agra, 01 Jul 2009	Anil Kumar, INS, Shivaji, 01 Jul 2009
Sudarshan Kumar, ADRDE, Agra, 01 Jul 2009	G Prathap Kumar, INS, Shivaji, 01 Jul 2009
Devendra Kumar, ADRDE, Agra, 01 Jul 2009	Chander Kishore Joshi, IRDE, Dehradun, 01 Jul 2009
Amit Kumar, ADRDE, Agra, 01 Jul 2009	Kiran Pandey, IRDE, Dehradun, 01 Jul 2009
Ajeet Gaur, ADRDE, Agra, 01 Jul 2009	Vivek Singh, IRDE, Dehradun, 01 Jul 2009
Danswring Goyary, DIBER, Haldwani, 01 Jul 2009	Arun Kumar, IRDE, Dehradun, 01 Jul 2009
Dinesh Dwivedi, DEAL, Dehradun, 01 Jul 2009	janmejay Sharma, IRDE, Dehradun, 01 Jul 2009
Ashwani Anand, DEAL Dehradun, 01 Jul 2009	Sanjay Dhiman, IRDE, Dehradun, 01 Jul 2009
Imran Sharif, DEAL Dehradun, 01 Jul 2009	Kavita Shakya, IRDE, Dehradun, 01 Jul 2009
Suresh Kumar Patel, DEAL Dehradun, 01 Jul 2009	Saurabh Verma, IRDE, Dehradun, 01 Jul 2009
Ved Prakash, DEAL Dehradun, 01 Jul 2009	Vimal Kant Mishra, IRDE, Dehradun, 01 Jul 2009
Snigdha Mondal, DEAL Dehradun, 01 Jul 2009	Rouchin Mahendra, IRDE, Dehradun, 01 Jul 2009
Shailendra Kumar Gautam, DEAL Dehradun, 01 Jul 2009	Ajay Mishra, IRDE, Dehradun, 01 Jul 2009
Kalpana Kalsi, DEAL Dehradun, 01 Jul 2009	Santosh Kumar, IRDE, Dehradun, 01 Jul 2009
Gaurav Mittal, DEAL Dehradun, 01 Jul 2009	Munish Kumar, IRDE, Dehradun, 01 Jul 2009
Rajesh Roy, DEAL Dehradun, 01 Jul 2009	Subhash Kumar Gautam, IRDE, Dehradun, 01 Jul 2009
Lalit Kumar, DEAL Dehradun, 01 Jul 2009	Neeraj Pandey, IRDE, Dehradun, 01 Jul 2009
Sunil Kumar Gupta, DEAL Dehradun, 01 Jul 2009	Nirakara Subudhi, ITR, Balasore, 01 Jul 2009
Tarun Kaushik, DEAL Dehradun, 01 Jul 2009	Sanjit Kumar Saha, ITR, Balasore, 01 Jul 2009
Devendra Kumar Gangwar, DEAL Dehradun, 01 Jul 2009	Amit Sardar, ITR, Balasore, 01 Jul 2009
Sunil Kumar Soni, DEAL Dehradun, 01 Jul 2009	Ashish Kumar Vaja, ITR, Balasore, 01 Jul 2009
Ajay Sharma, DEAL Dehradun, 01 Jul 2009	Raj Kumar Dutta, ITR, Balasore, 01 Jul 2009
Dharam Vir Singh, DEAL Dehradun, 01 Jul 2009	Sachin Kumar, SASE, Chandigarh, 01 Jul 2009
Sohan Lal Borana, DLJ, Jodhpur, 01 Jul 2009	Atul Kumar Tomar, SASE, Chandigarh, 01 Jul 2009
Amit Kumar Sadh, DLJ, Jodhpur, 01 Jul 2009	Syed Alfar Daniyal, SASE, Chandigarh, 01 Jul 2009
Manvendra Sharma, DLJ, Jodhpur, 01 Jul 2009	Chasmai Moiz Hatim, SASE, Chandigarh, 01 Jul 2009
Kulbhushan Prajapati, DLJ, Jodhpur, 01 Jul 2009	
Lokesh Saini, DLJ, Jodhpur, 01 Jul 2009	
Surendra Singh Barala, DLJ, Jodhpur, 01 Jul 2009	
Rajesh Kumar, DLJ, Jodhpur, 01 Jul 2009	
Yojana Janu, DLJ, Jodhpur, 01 Jul 2009	
Dr (Ms) Sandhya Songara, DLJ, Jodhpur, 01 Jul 2009	

T ABDURRASSAK  
Jt Dir (Pers)

#### ARMY BRANCH

No. 114, Dated 17th February 2010—The President is pleased to permit the undermentioned Officer relinquish his/her Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 28 Dec 2007 and to grant him/her permanent

commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

To be Capt

Virender Suhag, (MS-15032-A), (MR-08894-W), AMC, 12 Apr 2005

With seniority for pay and promotion from 12 Apr 2002 this includes 36 months for antedate for Doctor of medicine (Radiotherapy) which will not count for gratuity

(MoD Notification published in Gazette of India dated 14 Jul 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

The President is pleased to permit the undermentioned Officer relinquish his/her Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 05 Dec 2008 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

To be Capt

Barun Bhai Patel, (MS-15233-Y), (MR-08897-W), AMC, 20 Jan 2006

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 Feb 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

To be Surg Lt

Amit Kumar Agrwal, (MS-15103-W), (MR-08760-X), (75904-H), AMC, 16 Dec 2005

(MoD Notification published in Gazette of India dated 11 Nov 2006 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Prashant Vashisht, (MS-15165-W), (MR-08763-L), (75903-F), AMC, 16 Dec 2005

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 Feb 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

YASH PANDE

Brig

Dy DG AFMS (HR)

#### ARMY BRANCH

No. 115, Dated 17th February 2010—The President is pleased to permit the undermentioned Officers to resign from the Army Service wef dates noted against them, earlier

than their normal tenure/age of superannuation at their own request for their personal reasons :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION/WSES (O)

IC No. Rank, Name, Arms/Serv, EDR Date

WS-00567 Maj Venus Senjam, Engrs, 19.02.2009 (AN)

IC-64832 Maj Anand S V, Engrs, 01.07.2009

WS-01035 Lt Archana Kumari Mishra, AOC, 17.12.2006 (AN)

#### PERMANENT COMMISSION

IC No., Rank, Name, Arms/Ser & EDR Date

IC-61069 Maj Mushtaq Ahmad Khan, SM, Inf, 07 Jul 2009

IC-60472 Maj Soumasish Goswami, Inf, 24 Dec 2007

IC-58634 Maj Saurabh Batta, Inf, 27 Nov 2007 (AN)

IC-61007 Maj Mitesh Kumar Sinha, Inf, 15 Nov 2008 (AN)

IC-58791 Maj James Jerry Issac, Inf, 27 May 2008 (AN)

IC-61702 Maj Arvind Kumar Tiwari, Inf, 21 Jun 2009 (AN)

S K CHAKRABORTY

Jt Dir

MS/PR

#### ARMY BRANCH

#### CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERING

No. 116, dated 17th February 2010—The President is pleased to accept the resignation in respect of Smt. G Madhumita, Assistant Executive Engineer in the Corps of EME under Ministry of Defence with effect from 20 Dec 2006 (Afternoon).

N K KASHMIRA

Under Secy

#### FINANCE DIVISION

No. 117, dated 18th February 2010—The President is pleased to retire Shri S. C. Dhingra, Private Secretary, Ministry of Defence (Finance) from Government Service with effect from 31 Oct 2009 (AN) on attaining the age of superannuation.

R. C. MEENA

Assistant Financial Adviser (E)

#### ARMY BRANCH

No. 118, dated 18th February 2010—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from

the Army Service wef dates noted against them, earlier than their normal age of superannuation at their own request for their personal reasons :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

IC No., Rank, Name, Arms/Ser & EDR Date

- IC-45147 Lt Col M V Kumar, EME, 09 Jun 2009 (AN)  
 IC-41790 Col Arvind Mathur, EME, 11 Jul 2009 (AN)  
 IC-39658 Col (TS) Michael Thayil, Inf, 03 Nov 2007 (AN)  
 IC-54055 Maj Saurabh Srivastava, Inf, 29 Apr 2008 (AN)  
 IC-44577 Lt Col Kalyan Shrikant Pitre, Inf, 04 Jul 2009 (AN)  
 IC-45836 Lt Col Girish Parashar, Inf, 21 Jan 2009 (AN)  
 IC-47285 Lt Col Kaushik Sircar, Inf, 10 Jan 2008 (AN)  
 IC-45810 Lt Col Sunil N Tandale, Inf, 21 Aug 2008 (AN)  
 IC-45199 Lt Col PV Satheesan, SM, Inf, 23 Feb 2007 (AN)  
 IC-44683 Lt Col Atul Yadav, Inf, 12 Nov 2007 (AN)  
 IC-44333 Lt Col M Shashidhar Rao, Inf, 25 Aug 2007 (AN)  
 IC-43342 Lt Col Rakesh Rana, Inf, 30 Mar 2007 (AN)  
 IC-53012 Maj Amit Singh Negi, Inf, 15 May 2007 (FN)  
 IC-53706 Maj Surajit Bose, Inf, 05 Jan 2008 (AN)  
 IC-47896 Lt Col Sandeep Misra, AC, 11 Jul 2009 (AN)  
 IC-41459 Col (TS) Bhupendra Kumar Desai, EME, 04 Jul 2009 (AN)  
 IC-37582 Lt Col Ravinder Jasrotia, Inf, 09 Jun 2009 (AN)  
 IC-43897 Lt Col Sandeep Sud, Mech Inf, 21 Jul 2009 (AN)  
 IC-47260 Lt Col Anurag Asthana, Sigs, 06 Aug 2008  
 IC-47356 Lt Col H P Singh, Sigs, 21 Jan 2009 (AN)  
 IC-48424 Lt Col Bharat Singh, AOC, 04 Jul 2009 (AN)  
 IC-41761 Lt Col Jatinder Singh, Int Corps, 26 May 2007 (AN)  
 IC-44633 Lt Col Rajesh Khurana, Engrs, 04 Sep 2007 (AN)

IC-41933 Lt Col Ajit B Menon, Engrs, 15 Apr 2007 (AN)

IC-43308 Lt Col Naresh Kumar, Engrs, 05 Jan 2008 (AN)

IC-42983 Lt Col AK Datta, Engrs, 29 Mar 2009 (AN)

IC-45995 Lt Col VB Narasinga Rao, Engrs, 19 May 2009 (AN)

IC-47445 Lt Col Rajiv Gupta, Engrs, 08 Jul 2009 (AN)

IC-48450 Lt Col YSS Rao, Engrs, 13 Jun 2009 (AN)

IC-47964 Lt Col MD Bipin, Engrs, 20 Jul 2009 (AN)

IC-47452 Lt Col Abhijit Mitra, Sigs, 06 Aug 2008 (AN)

IC-37705 Col (TS) AM Pendharkar, Mech Inf, 20 Jul 2009 (AN)

IC-40477 Lt Col VV Raman, Engrs, 04 Feb 2007 (AN)

IC-41871 Lt Col PS Dhillon, Engrs, 04 Jul 2009 (AN)

IC-42878 Col Arvind Mohan, Sigs, 10 Jan 2009 (AN)

IC-44103 Lt Col Rajeel Singhle, Sigs, 04 Jul 2009 (AN)

S K CHAKRABORTY

Jt Dir

MS/PR

## ARMY BRANCH

Lt to be Capt

## CORRIGENDUM

No. 119, dated 18th February 2010—In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 14 Jan 2006 under the heading “Regular Army, Permanent Commission” and sub heading “Lt to be Capt” (Special List) the following amendment is made :—

Against : SL-04740 Rajbir Singh, TEO AD Arty

For : 05 Jul 2003 with seniority from 14 Jan 2000 without effect on pay and allowances.

Read : 05 Jul 2003 with seniority from 14 Jan 2000 with pay and allowances.

JASWANT SINGH

Jt Director

MS-8C

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
 एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2010  
 PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
 PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2010